



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25—मार्च 31, 2006 (चैत्र 4, 1928)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25—MARCH 31, 2006 (CHAITRA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2006

सं. 146, दिनांक 22 फरवरी 2006—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 79) के अधिकारी श्री वी. सोमासुदरन का केरल सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 21.11.2005 (पूर्वाह्न) से 20.11.2010 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 जून, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/7/2003-सी. एस.-1 तथा तदुपरांत दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/13/2001-सी. एस.-1 के संदर्भ में राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 29/4/2001-ई ओ (एम एम आई) में विहित शर्तों एवं निबंधनों पर श्री एम. एम. सिंह (सी एस एल सं 2193) द्वारा धारित अवर सचिव के पद का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 9 अगस्त 1999 से अगले आदेश जारी होने तक वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 जून, 2005 के का. ज्ञ. सं. 4/7/2003-सी. एस.-1 तथा तदुपरांत दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के का. ज्ञ. सं. 4/13/2001-सी. एस.-1 के संदर्भ में राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 29/4/2001-ई ओ (एम एम आई) में विहित शर्तों एवं निबंधनों पर श्री एम. एम. सिंह (सी एस एल सं 2193) द्वारा धारित अवर सचिव के पद का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 9 अगस्त 1999 से अगले आदेश जारी होने तक वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

3. इसके अलावा राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का. ज्ञ. सं. 21/11/2004-सी. एस.-1 में विहित निबंधन एवं शर्तों पर उप सचिव श्री एम. एम. सिंह (वैयक्तिक/तदर्थ आधार पर) को 25 मार्च 2004 से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की नफरी में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री ए. वी. बागुर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के का. ज्ञ. संख्या 21/24/2005-सी. एस.-1 के संदर्भ में 20.1.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, उद्योग मंत्रालय की नफरी में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री अशोक कुमार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के का. ज्ञा. संख्या 21/24/2005-सी एस-1 के संदर्भ में 30.1.2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की नफरी में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री अजय सक्सेना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के का. ज्ञा. संख्या 21/24/2005-सी एस-1 के संदर्भ में 1.2.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जी. विजयराघवन  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 147, दिनांक 28 फरवरी 06--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अल्पसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार वायु सेना मुख्यालय के

पत्र संख्या वा से मु/24715/4/पीपी(ओ)/पीसी-1/डीएसडी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबन्धों के तहत औपचार्यिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना  
भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट की फ्लाईंग अफसर रैंक में  
परिभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर वैशाली बनर्जी (27802), दिनांक 20 दिसम्बर 2003 से।

संजीव श्रीवास्तव  
विंग कमांडर  
जेडीपीओ3(डी)

सं. 148, दिनांक 22 फरवरी 06--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाइ गई अवधि तक या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' और 'ख') के पद पर और आगे बढ़ते हैं :--

अधिकारी का नाम, से और तक

सर्वश्री

जे. पी. माथुर, 1.1.2006 से 28.2.2006

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 1.1.2006 से 28.2.2006

नरेन्द्र चड्ढा, 1.1.2006 से 28.2.2006

हरविन्दर चावला, 1.1.2006 से 28.2.2006

जी. विजयराघवन  
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 149, दिनांक 27 फरवरी 06--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं।

नियमित सेना

सेनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

स्थाईकरन

डीएस-12096ए कैप्टन औमन नैयन, 20 मार्च 2003

डीएस-12105डब्ल्यू कैप्टन रूपिन्द्र कौर, 07 जून 2003

डीएस-12120एल कैप्टन सतीश टी एस, 05 मार्च 2003

डीएस-12123वाई कैप्टन रत्नदीप सिंह अहूजा, 08 मार्च 2003

डॉ. के. तनेजा  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

(वित्त प्रभाग)

सं. 150, दिनांक 23 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में शामिल किए गए श्री एस. पी. कपूर, आशुलिपिक समूह-ग की नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1.1.2006 से 28.2.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो इस प्रभाग में बढ़ाए जाने की स्वीकृति देते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

### वायु शाखा

सं. 151, दिनांक 28 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों निन्हें रक्षायी कमीशन (परखाधीन) रखा गया था कि पुष्टि दिनांक 29 जून 2005 से करते हैं, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तिथि से पूर्व तिथि (Ante-date) प्रदान की जाती है।

### वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फलाईंग अफसर नीलेन्द्र कुमार यादव (28132) ए ई (एल), साजिद खान (27861) ए ई (एल), अशोक सिंह बुधवार (28110) ए ई (एम), चन्दन चट्टोपाध्याय (28417) ए ई (एम), एन शान्ता मूर्ति (28425) ए ई (एल), धनश्याम ओझा (28426) ए ई (एल), राजा पादुर धिरवेगथाचारी (28418) ए ई (एम), प्रवीण कुमार (28121) ए ई (एल), सचिन मोंगा (28124) ए ई (एल), जयगोपाल सरवनन (28428) ए ई (एल), सर्वज्ञ चन्द्रा ईलमपुलसेरी कालरीकट (28113) ए ई (एम), एम वी रामा चन्द्रा प्रवीण (28123) ए ई (एल), महिपाल (28429) ए ई (एल), जसकरण सिंह बेदी (28115) ए ई (एल), एम के कार्तिकेयन (28119) ए ई (एल), अभिषेक गोतम (28419) ए ई (एम), प्रभुदयाल जांगड़ (28427) ए ई (एल), सौरभ सिंह चौहान (27927) ए ई (एल), अजित कुमार बासुदेवन (28127) ए ई (एल), बिजु बी (28163) ए ई (एल), अंकुर नवोदित (28133) ए ई (एल), ऐश कपूर (28130) ए ई (एल), गुरुप्रकाश नागराजन (28114) ए ई (एम), अजय कुमार ठाकुर (28122) ए ई (एल), पमबुंगल के श्री महेश (28161) ए ई (एल), कुनाल (28104) ए ई (एम), अनुप रामचन्द्रन (28116) ए ई (एल), रामकृष्णन रामरतनम (28431) ए ई (एल), ललित किशोर पारीक (28420) ए ई (एम), भवेश कुमार उपाध्याय (28430) ए ई (एल), राजेश कुमार शर्मा (28432) ए ई (एल), ए. चन्द्रशेखर (28111) ए ई (एम), प्रवीण कुमार (28121) ए ई (एल), प्रभुशंकर एस (28136) ए ई (एल), देवेन्द्र सिंह तोमर (28433) ए ई (एल), सुरेश कुमार रेडी कौमारेडी (28120) ए ई (एल), अनाभलाई रामास्वामी (28422) ए ई (एम), पुलपरा अभिमन्यु मेनन (28105) ए ई (एम), बालाकृष्णन

संदीप नाथर (28107) ए ई (एम), बिजु गोविन्दन नाडुविल कण्डी (28109) ए ई (एम), नोकडेनपौग जमीर (28129) ए ई (एल), नवीन वशिष्ठ (28112) ए ई (एम), नितिन सैनी (28118) ए ई (एल), सन्दीप जी (28134) ए ई (एल), श्याम सुन्दर साहु (28434) ए ई (एल), काशिविश्वनाथन एम (28423) ए ई (एम), कुमार राजीव रंजन (28436) ए ई (एल), जबकम सेट्टी श्रीकान्त (28131) ए ई (एल), देवकान्त पाल (28137) ए ई (एल), केसरले चन्द्रशेखर सुरेश (28106) ए ई (एम), वृन्दास्वामी वीरायामी (28435) ए ई (एल), गनसुला सुरेश (28126) ए ई (एल), देबान्नता प्रधान (28424) ए ई (एम), अदित्य प्रकाश पाण्डेय (28437) ए ई (एल), जसकरण सिंह जयणा (28438) ए ई (एल), मोहम्मद इब्राहिम एम (28162) ए ई (एल), पंकज रंजन (27879) ए ई (एल), प्रीतम सेट्टी (27824) ए ई (एम), एस आसुवतमन (28117) ए ई (एल), हिवरे सचिन भीमराव (27844) ए ई (एम), रजनीश न्योटा (27909) ए ई (एल), पूर्व तिथि (Ante-date) दिनांक 29 जून 2003 से।

संजीव श्रीवास्तव  
विंग कमाण्डर  
जे डी पी ओ 3(डी)

### (थल सेना विभाग)

सं. 152, दिनांक 23 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### पैराशूट रेजिमेंट

#### नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार मदन मोहन सिंह (सं. 13614734 के अब जेसी-413014एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 13617239 डब्ल्यू अब जेसी-413015पी), 09 अक्टूबर 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2004)

हवलदार श्रीपाल (सं. 13617264पी अब जेसी-413016एक्स), 23 नवम्बर 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2005)

हवलदार विक्रम सिंह चाहर (सं. 13616602पी अब जेसी-413017ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार चुरह सिंह (सं. 13615021एल अब जेसी-413018एच), 11 दिसम्बर 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

हवलदार हनुमान प्रसाद तिवारी (सं. 13616235एन अब जेसी-413019एल), 11 दिसम्बर 2005x

x(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 13616397वाई अब जेसी-413020ए),  
10 दिसम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005)

हवलदार अरविंदर सिंह (सं. 13616428एन अब जेसी-413021एच),  
11 दिसम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005)

हवलदार शाम लाल (सं. 13616515एफ अब जेसी-413022एल),  
11 दिसम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 नवम्बर 2005)

**सिख रेजीमेन्ट**  
**नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 3386589एक्स अब जेसी-499660एल),  
20 अगस्त 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2004

हवलदार भूपिंदर सिंह (सं. 3385084पी अब जेसी-499661एन),  
28 अक्टूबर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
25 मई 2005

हवलदार सविंदर सिंह (सं. 3385936वाई अब जेसी-499662डब्ल्यू),  
13 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
09 जुलाई 2005

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3386850एम अब जेसी-499663वाई),  
07 नवम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
17 सितम्बर 2005

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 3385104एक्स अब जेसी-499664एफ),  
28 अक्टूबर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 3386515एच अब जेसी-499665के),  
07 नवम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार गुरमुख सिंह (सं. 3387418एक्स अब जेसी-499666एम),  
09 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 3384381डब्ल्यू अब जेसी-499667पी),  
07 नवम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 अक्टूबर 2005

हवलदार अमरीत सिंह (सं. 3388797एल अब जेसी-499668एक्स),  
04 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
11 अक्टूबर 2005

हवलदार निधान सिंह (सं. 3385733पी अब जेसी-499669ए),  
06 नवम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
16 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क पलविन्दर सिंह (सं. 3386268ए अब जेसी-  
499670पी), 05 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005

हवलदार क्लर्क उदीत पाल (सं. 3385234ए अब जेसी-  
499671एक्स), 05 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क काबल सिंह (सं. 3386090पी अब जेसी-  
499672ए), 06 दिसम्बर 2005\*

\*नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005

**डोगरा रेजिमेण्ट**

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चरनजीत सिंह (सं. 3984692एफ अब जेसी-520224के),  
18 अप्रैल 2005

हवलदार राकेश कुमार (सं. 3990555वाई अब जेसी-520225एम),  
01 मई 2005

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 3984715एक्स अब जेसी-520226पी),  
01 मई 2005

हवलदार नेक राम (सं. 3983175एक्स अब जेसी-520227एक्स),  
16 जुलाई 2005

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3986469डब्ल्यू अब जेसी-520228ए),  
20 जुलाई 2005

हवलदार संतोष चन्द (सं. 3983205के अब जेसी-520229एच),  
10 अगस्त 2005

हवलदार सुशील कुमार (सं. 3983113एक्स अब जेसी-520230एक्स),  
14 नवम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2005 से)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 3983220वाई अब जेसी-520231ए),  
01 सितम्बर 2005

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3983235एफ अब जेसी-520232एच),  
01 सितम्बर 2005

हवलदार धर्म सिंह (सं. 3984346एल अब जेसी-520233एल),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 3984056एम अब जेसी-520234एन),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार लेख राज (सं. 3984061वाई अब जेसी-520235डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3984196ए अब जेसी-520236वाई),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार नन्द लाल (सं. 3984205डब्ल्यू अब जेसी-520237एफ),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 3983367पी अब जेसी-520238के),  
28 नवम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक बलीकरन कुमार (सं. 3985782पी अब जेसी-520239एम), 01 नवम्बर 2005

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4065106वाई अब जेसी-529913एम),  
20 अप्रैल 2005

हवलदार दिग्गिजय सिंह (सं. 4069000के अब जेसी-529914पी),  
13 जून 2005

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 4068738पी अब जेसी-529915एक्स),  
01 जुलाई 2005

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 4064362एफ अब जेसी-529916ए),  
01 जुलाई 2005

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4065965के अब जेसी-529917एच),  
18 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार विजय सिंह (सं. 4068448एक्स अब जेसी-529918एल),  
14 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र मणी (सं. 4064754पी अब जेसी-529919एन),  
29 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार महीपाल सिंह बिष्ट (सं. 4068467एच अब जेसी-529920एच), 25 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार सरूप सिंह (सं. 4065206के अब जेसी-529921एल),  
19 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अनुरुध कुमार (सं. 4071697एफ अब जेसी-529922एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार (लिपिक) प्रताप सिंह यादव (सं. 4071873एन अब जेसी-529923डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार (लिपिक) टेक चन्द (सं. 4065040एन अब जेसी-529924वाई), 01 सितम्बर 2005

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 4465472डब्ल्यू अब जेसी-509295एल),  
06 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 4465873एल अब जेसी-509296एन),  
30 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगजीवन सिंह (सं. 4467490एक्स अब जेसी-509297डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 4467502एफ अब जेसी-509298वाई),  
25 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 4466127पी अब जेसी-509299एफ),  
30 अगस्त 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 4466454ए अब जेसी-509300एल),  
09 नवम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 4467015एफ अब जेसी-509301एन),  
10 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 4466221वाई अब जेसी-509302डब्ल्यू),  
25 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार निरमल सिंह (सं. 4467505पी अब जेसी-509303वाई),  
20 सितम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार कुलचन्त सिंह (सं. 4465209एल अब जेसी-509304एफ),  
12 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार करम सिंह (सं. 4265966डब्ल्यू अब जेसी-509305के),  
12 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार लखविन्द्र सिंह (सं. 4466328एन अब जेसी-509306एम),  
12 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 4467359ए अब जेसी-509307पी),  
03 अक्टूबर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4463293एक्स अब जेसी-509308एक्स),  
01 नवम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार मेजर सिंह (सं. 4460834एच अब जेसी-509309ए),  
01 नवम्बर 2005\*

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 2886213एच अब जेसी-469919डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2005/26 नवम्बर 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरग्यान सिंह (सं. 2879083एच अब जेसी-469820एल),  
19 मार्च 2005

हवलदार चैन सिंह (सं. 2877872डब्ल्यू अब जेसी-469821एन),  
20 सितम्बर 2005

हवलदार रविंदर सिंह (सं. 2881075एच अब जेसी-469822डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह नथावत (सं. 2885548एन अब जेसी-469823वाई), 18 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 2885896पी अब जेसी-469824एफ),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार महीपाल (सं. 2879137वाई अब जेसी-469825के),  
01 नवम्बर 2005

हवलदार जबर सिंह भाटी (सं. 2881102एफ अब जेसी-469826एम),  
01 नवम्बर 2005

हवलदार गिरधारी राम जजारा (सं. 2882140के अब जेसी-469827पी),  
01 दिसम्बर 2005

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 2880282एच अब जेसी-469828एक्स),  
01 दिसम्बर 2005

हवलदार आशोक कुमार (सं. 2890741के अब जेसी-469829ए),  
01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैक में

हवलदार क्लर्क दिलदार सिंह (सं. 2881558ए अब जेसी-469830पी),  
01 अक्टूबर 2005

हवलदार क्लर्क धर्मवीर (सं. 2881559एच अब जेसी-469831एक्स),  
01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क रामेश्वर (सं. 2881563एल अब जेसी-469832ए),  
01 नवम्बर 2005

हवलदार क्लर्क प्रेम प्रकाश यादव (सं. 2881564एन अब जेसी-469833एच), 01 नवम्बर 2005

हवलदार कलर्क गिरधारी सिंह बंकावत (सं. 2881539पी अब जेसी-469834एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पूरण सिंह (सं. 2881006एम अब जेसी-469799एन), 11 सितम्बर 2005/08 जुलाई 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार पुरुण सिंह (सं. 2879989एन अब जेसी-469800एक्स), 01 जुलाई 2005

हवलदार कृष्ण सिंह राजपूत (सं. 2880104ए अब जेसी-469801ए), 01 जुलाई 2005

हवलदार राजबीर (सं. 2880226के अब जेसी-469802एच), 07 जुलाई 2005

हवलदार भागीरथ सिंह (सं. 2877297ए अब जेसी-469803एन), 10 जुलाई 2005

हवलदार विजय बहादुर सिंह (सं. 2880897एन अब जेसी-469804एन), 26 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 2881720एम अब जेसी-469805डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार उदल सिंह (सं. 2885173ए अब जेसी-469806वाई), 20 अगस्त 2005

हवलदार अनील कुमार (सं. 2888683एम अब जेसी-469807एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार श्याम सिंह (सं. 2880939पी अब जेसी-469808के), 07 सितम्बर 2005

हवलदार गजराज सिंह (सं. 2881866ए अब जेसी-469809एम), 06 अक्टूबर 2005/07 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार रोहतास सिंह (सं. 2897295ए अब जेसी-469810एफ), 11 सितम्बर 2005

हवलदार अमलेश सिंह (सं. 2879579एक्स अब जेसी-469811के), 21 सितम्बर 2005

हवलदार रामचंद्र सिंह यादव (सं. 2879906एक्स अब जेसी-469812एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार तिलक सिंह तोमर (सं. 2878289एन अब जेसी-469813पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2873497एम अब जेसी-469814एक्स), 05 अक्टूबर 2005

हवलदार आनंद राम जाट (सं. 2879928डब्ल्यू अब जेसी-469815ए), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सुभाष चंद्र कटेवा (सं. 2879934के अब जेसी-469816एच), 16 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2879851वाई अब जेसी-469817एल), 01 नवम्बर 2005

हवलदार नथू सिंह ओगरा (सं. 2881674एच अब जेसी-469818एन), 01 दिसम्बर 2005

जमू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार नरिंजन सिंह (सं. 3382272एल अब जेसी-580175डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार सुनील दत्त, एस एम (सं. 13749857के अब जेसी-580177एफ), 24 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 13747992वाई अब जेसी-580178के), 16 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार मदन लाल (सं. 13747685एफ अब जेसी-580179एम), 13 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 13747897एम अब जेसी-580180एफ), 13 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार ऑकार सिंह (सं. 13748229एच अब जेसी-580181के), 01 अक्टूबर 2005\*

हवलदार कोहर सिंह (सं. 13749008एच अब जेसी-580182एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार ऑकार चन्द (सं. 13749458ए अब जेसी-580183पी), 01 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक अरून कुमार दिक्षित (सं. 13749745के अब जेसी-580174एन), 01 नवम्बर 2005

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार लिपिक ब्रह्मजीत सिंह (सं. 13750496एच अब जेसी-580176वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक द्विविजेन्द्रा प्रताप सिंह (सं. 13749729एम अब जेसी-580184एक्स), 14 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

जाट रेजिमेंट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन सिंह (सं. 3178477वाई अब जेसी-489757एच), 06 सितम्बर 2005

हवलदार सत्येन्द्र सिंह सिवाच (सं. 3179553एम अब जेसी-489758एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 3179667एक्स अब जेसी-489759एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मांगे राम (सं. 3177654एफ अब जेसी-489760एच), 01 नवम्बर 2005

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री  
नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार करण सिंह (सं. 9086243ए अब जेसी-593366के), 30 मई 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार राज कुमार (सं. 9086892एल अब जेसी-593367एम), 18 मई 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार देव राज (सं. 9087357एक्स अब जेसी-593368पी), 23 मई 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 06 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 9087330ए अब जेसी-593369एक्स), 28 जून 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 05 अप्रैल 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार निसार अहमद वानी (सं. 9089413के अब जेसी-593370पी), 02 जून 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार अब्दुल मजीद (सं. 9088324वाई अब जेसी-593371एक्स), 02 जून 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 14 फरवरी 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

हवलदार डिप्टी राज (सं. 9088475एक्स अब जेसी-593372ए), 23 मई 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 06 मार्च 2005 से वरिष्ठता दी जाती है।)

मद्रास रेजीमेंट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ए नागथेवान (सं. 2585868के अब जेसी-439656वाई), 01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार शैक दस्तागिरी (सं. 2591424डब्ल्यू अब जेसी-439652एच), 22 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रबाकरन वी (सं. 2591152एफ अब जेसी-439653एल), 26 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार पी आरुमुगम (सं. 2591153के अब जेसी-439654एन), 22 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार भास्कर आचार्या (सं. 2590023पी अब जेसी-439649एच), 29 अगस्त 2005

हवलदार सुधाकरन पी एस (सं. 2593152ए अब जेसी-439655डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार गोपाकुमार वी (सं. 2587305एच अब जेसी-439662एम), 01 अक्टूबर 2005

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जाधव विजय विठ्ठल (सं. 2782470एन अब जेसी-459577एल), 05 सितम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार संकपाल कृष्णत मारुति (सं. 2784848एन अब जेसी-459578एन), 11 अक्टूबर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार यादव रंगराव बंडु (सं. 2784287के अब जेसी-459579डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार शंकरेप्पा विरादर (सं. 2783390एच अब जेसी-459580एल), 31 अक्टूबर 200

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार कोठावले दत्त आत्माराम (सं. 2781707एन अब जेसी-459581एन), 03 नवम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार नाईक राजन नरहर (सं. 2782881एम अब जेसी-459582डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हनिफ अली (सं. 2782278के अब जेसी-459583वाई), 28 नवम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बसवराज हुंडेकर (सं. 2782437डब्ल्यू अब जेसी-459584एफ), 14 नवम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार उपेंद्र सिंह ठाकुर (सं. 2783653डब्ल्यू अब जेसी-459585के), 15 नवम्बर 2005+

+ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दि राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक बिजेन्द्र सिंह (सं. 2983985के अब जेसी-479671डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक शैसादेबा दलई (सं. 2984505एफ अब जेसी-479672वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक राम चन्द्र सिंह (सं. 2983978एन अब जेसी-479673एफ), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार लिपिक प्रदीप कुमार (सं. 2984517डब्ल्यू अब जेसी-479674के), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार लिपिक सर्वोत्तम कुमार (सं. 2982698एन अब जेसी-479675एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विशम्बर दयाल (सं. 2978994एफ अब जेसी-479676पी), 01 अक्टूबर 2005, ज्येष्ठता 04 फरवरी 2004 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार राम अवतार (सं. 2982201एल अब जेसी-479677एक्स), 01 जुलाई 2005

हवलदार महेन्द्र कुमार (सं. 2989572डब्ल्यू अब जेसी-479678ए), 01 जुलाई 2005

हवलदार नन्ह लाल गूजर (सं. 2990431एन अब जेसी-479679एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार दूनी सिंह (सं. 2989691एम अब जेसी-479680एक्स), 01 जुलाई 2005

हवलदार भगवान सिंह (सं. 2984489पी अब जेसी-479681ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार मुस्ताक अहमद (सं. 2985426वाई अब जेसी-479682एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार केलाश चन्द्र (सं. 2986646पी अब जेसी-479683एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार दिला राम (सं. 2989834एफ अब जेसी-479684एन), 05 सितम्बर 2005, ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना।

हवलदार शरवन सिंह (सं. 2990004एक्स अब जेसी-479685डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार महेश कुमार (सं. 2982707के अब जेसी-479686वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 2982308एन अब जेसी-479687एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2982517एक्स अब जेसी-479688के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार रनजीत मिंह (सं. 2981643एक्स अब जेसी-479689एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार गजानन् यादव (सं. 2982921एम अब जेसी-479690एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार भगवान सिंह (सं. 2984471वाई अब जेसी-479691के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार शिव भजन सिंह (सं. 2983116पी अब जेसी-479692एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार चक्रावती परमवीर सिंह (सं. 2985754एम अब जेसी-479694एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 2982573डब्ल्यू अब जेसी-479695ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार महेश पाल (सं. 2989890ए अब जेसी-479696एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बने सिंह रावत (सं. 2987165पी अब जेसी-479697एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार उम्मेद सिंह गूजर (सं. 2980056ए अब जेसी- 479698एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार धूब सिंह चौहान (सं. 2982393एन अब जेसी-479699डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार रमेशवर दयाल (सं. 2983594वाई अब जेसी-479700ए), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार विरेन्द्र सिंह अहिर (सं. 2983070एक्स अब जेसी-479701एच), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार सूरज भान (सं. 2984060ए अब जेसी-479702एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार भूपेन्द्र सिंह चौहान (सं. 2986711ए अब जेसी-479703एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 2986588डब्ल्यू अब जेसी-479704डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार मदन प्रसाद (सं. 2988115डब्ल्यू अब जेसी-479705वाई), 01 नवम्बर 2005

हवलदार राकेश कुमार (सं. 2981092एक्स अब जेसी-479706एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार जय चन्द (सं. 2987436एफ अब जेसी-479707के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार विरेन्द्र सिंह, सेना मेडल (सं. 2983959एच अब जेसी-479708एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार नेह पाल (सं. 2985722के अब जेसी-479709पी), 01 नवम्बर 2005

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 2985038एफ अब जेसी-479710के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार महावीर सिंह (सं. 2988221पी अब जेसी-479711एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार सुशील कुमार (सं. 2988850वाई अब जेसी-479712पी), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार सर्वेश सिंह (सं. 2983615के अब जेसी-479713एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार गोरथन लाल गूजर (सं. 2984123एक्स अब जेसी-479714ए), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार उदयवीर सिंहराघव (सं. 2982986ए अब जेसी-479715एच), 01 दिसम्बर 2005

### कुमाऊँ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4176612वाई अब जेसी-539803वाई), 03 सितम्बर 2005/01 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4176896एन अब जेसी-539811के), 27 जुलाई 2005/ 01 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार भुवन सिंह मुडेला (सं. 4184151पी अब जेसी-539804एन), 11 जुलाई 2005/13 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4180673एन अब जेसी-539802पी), 01 अगस्त 2005

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 4182758एच अब जेसी-539835एन), 17 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

सी एच एम दिवान सिंह (सं. 4179020ए अब जेसी-539821एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4177941एफ अब जेसी-539822डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार भास्कर दत्त (सं. 4180597एम अब जेसी-539823वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4182468एल अब जेसी-539824एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार घनश्याम दास यादव (सं. 4181473के अब जेसी-539789के), 06 जून 2005/01 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 14701123एफ अब जेसी-539806वाई), 13 अगस्त 2005/21 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 21 जून 2005 से दी जाती है)

सीक्यूएमएच नारायण दत्त (सं. 4177532एन अब जेसी- 539807एफ), 13 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

सीएचएम वीरपाल सिंह (सं. 4180463एन अब जेसी-539825के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 4180687एन अब जेसी-539826एम), 01 सितम्बर 2005

सीएचएम मोहन सिंह (सं. 4179087वाई अब जेसी-539814एक्स), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार अमर सिंह (सं. 4177744वाई अब जेसी-539816के),  
06 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

सीक्यूएमएच गंगा गिरि (सं. 4177788डब्ल्यू अब जेसी-539749एच), 02 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

सीएचएम बहादुर सिंह (सं. 4177739एन अब जेसी- 539805डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005/21 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 21 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4177989पी अब जेसी-539792के), 01 जुलाई 2005

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4174969डब्ल्यू अब जेसी-539790वाई), 03 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार बीरेन्द्र सिंह कंवल (सं. 4175487एन अब जेसी-539849एन), 23 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4175962वाई अब जेसी- 539850एच), 23 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

सीएचएम कुन्दन सिंह (सं. 4176097एक्स अब जेसी-539851एल), 23 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार माधो सिंह (सं. 4174362के अब जेसी-539815ए), 30 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सत्यदेव प्रसाद (सं. 8032421एन अब जेसी 539819एक्स), 01 सितम्बर 2005

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार के हेखवी सेमा (सं. 14702001के अब जेसी- 590169डब्ल्यू), 28 जून 2005/21 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 21 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

सीएचएम के अद्वी माओ (सं. 14702354के अब जेसी- 590170एल), 11 जुलाई 2005/01 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार होम बहादुर थापा (सं. 14701018एल अब जेसी-590167एल), 01 जुलाई 2005

सीएचएम गोविंद सिंह (सं. 4177800एम अब जेसी- 590168एन), 01 जुलाई 2005

सीएचएम बिसू (सं. 14701893एन अब जेसी-590166एच), 03 मई 2005/01 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

कुमांड रेजिमेन्ट

हवलदार कल्याण राम (सं. 4180064के अब जेसी-539812एम), 01 जुलाई 2005

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क प्रिथी पाल (सं. 2473717के अब जेसी- 429841वाई), 23 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार क्लर्क राजेन्द्र पौल डाक्युर (सं. 2473884ए अब जेसी-429842एफ), 07 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार क्लर्क ए उमापति (सं. 2481790एक्स अब जेसी-429843के), 01 अगस्त 2005

हवलदार क्लर्क कुँवर पाल (सं. 2482215एच अब जेसी-429844एम), 10 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुल्तान सिंह (सं. 2476154ए अब जेसी-429889एम), 03 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार मुल्क राज (सं. 2475125वाई अब जेसी-429890एफ), 24 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2475394एल अब जेसी-429891के), 27 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार नरिन्द्र सिंह (सं. 2476794के अब जेसी-429892एम),  
11 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार मक्खन सिंह अजरोट (सं. 2479153एच अब जेसी-  
429893पी), 27 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सत पाल (सं. 2475183एच अब जेसी- 429894एवस),  
13 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2479358एक्स अब जेसी- 429895ए),  
21 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
15 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 2473211एल अब जेसी- 429896एच),  
17 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
23 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 2474126पी अब जेसी- 429897एल),  
04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
26 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जय करण मलीक (सं. 2472787डब्ल्यू अब जेसी-  
429898एन), 03 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 2475516के अब जेसी-429906एफ),  
01 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार राज कुमार (सं. 2474847वाई अब जेसी-429905वाई),  
04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 2474515पी अब जेसी-429899डब्ल्यू),  
02 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सुरमीत सिंह (सं. 2474417पी अब जेसी-429900ए),  
04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार राम लाल (सं. 2475666ए अब जेसी-429901एच),  
09 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार रघु बीर सिंह (सं. 2476016वाई अब जेसी-429902एल),  
09 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार अमीन चन्द (सं. 2477165वाई अब जेसी-429903एन),  
08 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार आग्या राम (सं. 2477181डब्ल्यू अब जेसी-429904डब्ल्यू),  
08 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 7430601पी अब जेसी-429907के),  
08 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
07 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार विद्या नन्द (सं. 2475721एल अब जेसी-429908एम),  
02 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार विजय कुमार (सं. 2479012एन अब जेसी- 429909पी),  
08 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

विशेष सूची

राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) कुशला नन्द सर्टी (जेसी-105008एल),  
13 अक्टूबर 2005

दिवाकर

अवर सचिव

सं. 153, दिनांक 23 फरवरी 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :—

## नियमित सेना

इन्फौन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फौन्ट्री रेजिमेन्ट  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रतन सिंह (जेसी-418136ए), 01 नवम्बर 2005

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शितोले हिंगलाल भिकन (जेसी-419344एफ),  
11 नवम्बर 2005\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
15 जून 2005 से दी जाती है)नायब सूबेदार लोक बहादुर अधिकारी (जेसी-419828एफ),  
26 अक्टूबर 2005\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)नायब सूबेदार लाडगे विष्णु अन्ना (जेसी-419477एक्स),  
21 अक्टूबर 2005\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुवर सिंह (जेसी-419829के), 08 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनत देव प्रसाद (जेसी-419347पी), 31 अक्टूबर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-419475एम), 29 सितम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-419795एफ), 11 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-419237ए), 18 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-419432एक्स), 05 अक्टूबर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहनन पी (जेसी-419607पी), 18 अक्टूबर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रघुनाथ (जेसी-419682वाई), 14 अक्टूबर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-419858वाई), 12 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-419299ए), 24 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
05 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बखशीश सिंह (जेसी-418569एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार इप्पन पी डी (जेसी-419381पी), 02 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरी राम (जेसी-419390डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)नायब सूबेदार राधे श्याम चनेजा (जेसी-419417एन), 02 नवम्बर  
2005\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)नायब सूबेदार नन्दा कुमार जी एस (जेसी-419458एम), 02 नवम्बर  
2005\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार साजू डी (जेसी-419575एक्स), 02 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरीशन टी बी (जेसी-419748एक्स), 02 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रेम धोज गिरी (जेसी-419859एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दयानिधि ठाकुर (जेसी-419886एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार भक्ता बहादुर छेतरी (जेसी-419912एफ), 01 नवम्बर  
2005

नायब सूबेदार महेश प्रसाद (जेसी-419476पी), 04 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह अलमिया (जे.सी.-419520एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह चौहान (जे.सी.-419521डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) यशवन्त सिंह (सं. 14911268के अब जे.सी.-420370पी), 11 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) कुवँग पाल सिंह (सं. 14911271के अब जे.सी.-420371एक्स), 28 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) मोहिन्द्र सिंह (सं. 14911284एफ अब जे.सी.-420372ए), 02 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) मुन्ना लाल (सं. 14911309एच अब जे.सी.-420405ए), 03 दिसम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) दया नन्द (सं. 14911310एक्स अब जे.सी.-420406एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) रघुबीर सिंह (सं. 14901628एफ अब जे.सी.-420369ए), 11 नवम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

ह./- अपठनीय  
अवर सचिव

सं. 154, दिनांक 27 फरवरी 2006—थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 11/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

एयर कमोडोर से मेजर जनरल के पद पर

डी आर-10273 डब्ल्यू डी के तनेजा, 14 नवम्बर 2005, परन्तु वैकल्पिक वरीयता 24 अक्टूबर 2005 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

परमजीत सिंह  
लैफिटेनेंट जनरल  
डी जी डी एस

सं. 155, दिनांक 28 फरवरी 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

सर्ज लैफिट कमाण्डर से सर्ज कमाण्डर के पद पर

पी शर्मा (एम आर-06581वाई) (75549), ए एम सी, 30 जून 2004

सी एस सक्सेना (एम आर-06322डब्ल्यू) (75515), ए एम सी, 24 जुलाई 2005

स्क्वाइन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

एस मुथुबेल (एम आर-06602के) (20962एच), ए एम सी, 08 अगस्त 2005

श्रीमति ज्योति मार्या (एम आर-07152के) (23066), ए एम सी, 15 जुलाई 2005

ए अग्रवाल (एम आर-06326एम) (21497), ए एम सी, 24 जुलाई 2005

ए बी तिवारी (एम आर-06408पी) (20959), ए एम सी, 13 दिसम्बर 2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 156, दिनांक 27 फरवरी 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी-37465, सुमेर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2005

आई सी-27620, एन पी सिंह, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-37203, वी के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-34285, एस वी सिंह, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-34227, वी बी प्रसाद, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-34777, के जे एस सन्धू, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-37489, एस डी पराशर, मैक इन्फैन्ट्री, 15 नवम्बर 2005

आई सी-37496, वी के गौतम, इन्फैन्ट्री, 17 नवम्बर 2005

आई सी-37475, एस एस मनकोटिया, मैक इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2005

आई सी-37467, आई बी थौमस, इन्फैन्ट्री, 17 नवम्बर 2005

आई सी-34722, जी रमेश, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

आई सी-37498, आर के भारद्वाज, ए ओ सी, 15 नवम्बर 2005

आई सी-37529, आर के अवस्थी, ए ओ सी, 15 नवम्बर 2005

आई सी-37483, सेवा सिंह, इन्फैन्ट्री, 17 नवम्बर 2005

आई सी-37508, गोपाल कानल, आर्टी, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-37506, प्रबीन चोपड़ा, आर्टी, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-37468, एस एस मलिक, ए सी, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-38121, वी एस साम्बयाल, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2005  
 आई सी-37029, आर पी माहेकर, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-37860, बी के बस्तिया, ई एम ई, 27 अक्टूबर 2005  
 आई सी-37526, के के चौधरी, ए सी, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-37422, राजिन्दर लाल धम्मी, ए एस सी, 01 मई 2005  
 आई सी-34545, पी के जैन, ए ए डी, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-38200, ए के मलिक, इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-35699, मनोबेन्द्रा रोय, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-35339, जी पी काले, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-33185, ए के जेटली, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-31207, एस एस तावदे, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004  
 आई सी-37858, अखिल कुमार, ई एम ई, 27 अक्टूबर 2005  
 आई सी-37509, आर वधावन, इन्फैन्ट्री, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-37477, आर एस वर्मा, आर्टी, 15 नवम्बर 2005  
 आई सी-25239, डी के मालाकार ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004  
 ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में  
 आई सी-37018, डी एस सराव, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-35509, वी जयप्रकाशन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-35949, आर एस सांगवान, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-35958, ए के पाठक, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38066, दिपांकर रे, ए ए डी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38074, जे एस सेखों, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37541, एस एस बिष्ट, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37543, डी एस संधू, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37545, पी एम एहलूवालिया, गाईस, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37546, विजय पाल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37550, एम ए डिसूजा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37553, एस सेनगुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37554, आर एस ग्रेवाल, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37555, वी जी खण्डारे, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37557, बी एस ब्रार, ए एस सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37561, वी के बहुगुणा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

आई सी-37565, एस एस सेखों आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37566, वी एस ब्रार, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37569, एम पी सिंह, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37570, राजेश आनन्द, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37575, पर्मवीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37579, जे डी सूरी, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37581, वी एस भलोथिया, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37584, सी एस एन जयदेव, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37593, सी ए पीठावाला, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37594, हरपाल सिंह, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37601, मानिक वैद, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37610, पी एच रेड्डी, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37617, तेज सिंह राधव, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37630, एस पी यादव, ए ए डी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37632, डी कोलथ, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37639, एच एम कावड़िया, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37641, के ए खान, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37645, आर एस नैटियाल, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37648, एस के तिवारी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37655, वी जी सुब्रमण्यन, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37656, आर के वर्मा, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37661, के एस पुरी, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37663, आर के पन्त, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-37924, मोहिन्दर प्रताप, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38641, जे एस मेनन, गाईस, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38643, आर एस सलारिया, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38645, अजय साह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38647, सुशान्त मैरा, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38651, बी चोपड़ा, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38653, जे के सेठी, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38654, देवराज अन्धू, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38655, एम एम इसो, ए ए डी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38656, एस जे ग्रेसियस, इन्जीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38657, यू एस दादू, इन्जीनियर्स, 01 फरवरी 2005

आई सी-38658, एस राजाराम, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38663, सुभाष कटोच, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38665, आई एस सुहाग, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38666, ए चटर्जी, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38668, पी एन कुमार, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38669, जी शंकर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38670, एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38672, डी डेविड, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38674, बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38675, ए. एस. पुरी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38678, एन सीतारमैया, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38679, अभय कृष्णा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38680, संजय अग्रवाल, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38681, डी कहलोन, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38682, ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38684, जे बी खाडिलकर, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38685, वी पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38686, विनोद कुमार, ए ए डी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38691, जे एस बेदी, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38693, एस गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38696, एन पी सिंह, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38700, बी के जेकब, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38704, ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38705, के बी चन्द, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38706, जगदीश सिंह, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38708, ए आम्बे, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38710, उरविन्दर सिंह, ए ए डी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38711, विनोद कुमार, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38714, आर एस मालावे, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38718, बी के गूहा, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38720, ए एस चौधरी, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38722, सी. मैथसन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38723, ए. खन्ना, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38725, के. के. एन. ठाकर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38728, एम. एस. महल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

आई सी-38729, एस. के. सूदन, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38731, एस. एस. लाम्बा, एओसी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38732, ए. जी. कुण्डालकर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38733, वी. पी. सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38736, कृष्ण कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38739, आर. के. राजपूत, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38741, जसविन्द्र सिंह, एसी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38744, एस. प्रताप, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38746, अरुण सेन, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38747, आर. के. साइवाल, एओसी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38749, एस. एम. मुरारी, एएडी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38750, एम. एम. नरवाणे, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38752, पी. के. सीवच, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38758, आर. के. कोहली, एएससी; 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38759, दीपक दास, एएडी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38761, एस. मामगेन, इन्ट कोर, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38763, एस. एस. चौधरी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38766, संजीव कुमार, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38767, पी. एस. नायर, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38768, रस्तम पटनायक, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38771, जी. एस. स्नावत, एएससी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38773, एल. एम. अरोड़ा, एओसी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38774, एन. औडिसेसैया, ईएमई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38775, राज राकेश, एसी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38782, सरबजीत सिंह, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38784, ए. पी. राय, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38788, सी. एम. एफ. प्रभु, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38792, पंकज मल्होत्रा, ईएमई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38795, जे. बी. यादव, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38796, सुनील यादव, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38802, के. आर. चक्रवर्ती, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38804, आई. पी. एस. राणा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38810, डी. सोनी, एएडी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-38812, पी. के. सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

आई सी-38814, अभय सिंह, गाड़स, 01 फरवरी 2005	आई सी-38997, एस के सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38821, जे एस कुमार, एओसी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39001, ए के घोष, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38825, डी के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39004, टी वी नफदे, ए सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38826, आर गिरीश बाबू एएडी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39010, एस ए कृष्णन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38832, एस एन भदूरी, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39017, योगान्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38833, एच वी सिंह, एसी, 01 फरवरी 2005	आई सी-36000, आलोक बत्रा, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38842, बी के दास, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-40655, आर जी कदम, ई एम ई, 01 फरवरी 2005
आई सी-38855, के एस कनवर, एएडी, 01 फरवरी 2005	आई सी-40658, बिरोचन भट्ट, ई एम ई, 01 फरवरी 2005
आई सी-38857, ए के प्रेहार, एएससी, 01 फरवरी 2005	आई सी-40664, सर्वदीप सिंह, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-38871, राजेश सिन्हा, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-40668, राजा पुरी, ई एम ई, 01 फरवरी 2005
आई सी-38874, एस समद्वर, एसी, 01 फरवरी 2005	आई सी-40674, रविन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-38879, अश्वनी कुमार, एएडी, 01 फरवरी 2005	आई सी-40660, रवि शर्मा, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-38882, ए के मुखर्जी, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-37679, जेशन पीटर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38884, एस एस झा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37681, सुनील के सुहाग, ए एस सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38886, राजीव पन्त, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37682, एच एस बेदी, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38893, शमशेर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37683, पी पाल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38903, दिलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37685, हरजिन्दरजीत सिंह, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38905, एस के गुप्ता, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-37687, सी एस कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38907, जॉर्ज जॉसेफ, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37689, जी ए न्यूटन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38918, ए के सरकार, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-37692, दीपक गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38927, एच एस सोधी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37694, एस के शर्मा, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38928, ए पी बम, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-37698, ओ जे एस खंगूरा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38933, कृष्णन ए, एसी, 01 फरवरी 2005	आई सी-37699, स्वर्ण सिंह, इन्ट कोर, 01 फरवरी 2005
आई सी-38938, ज्वनी मैथ्यू, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-37701, आर पी पाठें, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38939, गुरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37706, कमलजीत सिंह, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-38940, वी एस सैनी, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-37717, यू एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38944, सी परमाणिक, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37722, आर के शर्मा, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38951, ओ एस डागर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-37729, बी हरिहरण, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38952, अविनाश सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39060, पी कुमार मलिक, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-38957, एस कृष्णन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39061, एस एस रंधावा, ए सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38963, ए पी त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39062, डी रैना, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-38986, के सी पाढ़ी, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39063, वी पी भगत, ई एम ई, 01 फरवरी 2005
आई सी-38992, आर के मिश्रा, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39064, एस एम देसाई, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-38993, जे एन सिंह, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39065, एस बी सिंह, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005

आई सी-39069, एल एन शर्मा, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39138, एस के रतन, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39070, रणबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39140, पी एस जग्गी, ए ए डी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39071, जी पठानिया, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39141, गुरनाम सिंह, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39074, राज कपूर, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-39142, के एस एस राठोर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39075, कशमीर सिंह, ए एस सी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39144, जी सी अंगीरस, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39077, अरुण बहल, मेक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39147, विनोद रायजादा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39079, एस एस हसब्नीस, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39156, आर बहल, ए सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39081, दिलीप प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39157, एच वी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39082, यू पी एस पठानिया, मेक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39160, ए प्रभाकर, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39083, एस के झा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39163, टी के घोष, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39084, एल बी चन्द, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-39164, ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39091, पवन आनन्द, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39165, ई जे शांचिस, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005
आई सी-39100, बिक्रम सेठ, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39171, अभय प्रसाद, ई एम ई, 01 फरवरी 2005
आई सी-39101, एम ए ओका, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39175, आर एस खांडपुर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39102, एन एस भण्डारी, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39180, राजीव मिश्रा, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39103, एस एन राय, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39181, एस डी प्रसाद सिंह, ए सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39104, जे एस संधू, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39184, सुदम नायक, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39105, एस मजूमदार, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39185, ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39106, पी अरोड़ा, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39188, आर पी सिंह, ए ए डी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39108, पी एस जेम्स, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39191, अनिल एहलूवालिया, ए ए डी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39109, मनोहर थॉमस, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39195, आर बी यादव, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39110, सोमनाथ झा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39204, एस एस बाजवा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39111, एम विजय कुमार, आर्टी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39207, सी एस प्रभु, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39117, बी एस सहरावत, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39208, गुरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39119, एस एस संधू, गार्ड्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-39213, एस के चावला, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39121, वी पी साही, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39214, डी एस त्रिपाठी, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39122, ए के गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39215, टी सी सेन, आर्टी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39125, दलीप सचदेव, ए ए डी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39216, ए के मेनन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39126, डी एस चहल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39217, आर एस खन्ना, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39128, आर यू नंदगांवकर, ए ए डी, 01 फरवरी 2005	आई सी-39222, ए के झा, ए ए डी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39130, आर चोपड़ा, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39223, आर एम एस रावत, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005
आई सी-39131, ए सी जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005	आई सी-39225, विनोद बत्रा, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39132, एस एल फिरके, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-39226, सुखजीत सिंह, ए एस सी, 01 फरवरी 2005
आई सी-39135, आर भारद्वाज, गार्ड्स, 01 फरवरी 2005	आई सी-39229, डी अग्निहोत्री, मेक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

- आई सी-39232, ए एस सहगल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39233, जी टी खना, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39235, अरुण मेहता, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39236, सी एस श्रीरामलु, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39250, ए एस इंग्लेश्वर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39252, पी सी पॉल, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39258, के एस शे ओरन, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39260, जे एस विक्र, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39264, एच एस कौरा, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39275, एस पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39280, मनोज कुमार, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39283, कंबल कुमार, आर्मी एविएशन, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39287, के एस सैनी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39289, एस बनर्जी, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39295, पी एस पनू, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39299, जे भारी, मैक इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39311, ए पी चटर्जी, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39316, संजीव सूद, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39317, प्रभात भट्ट, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39319, पी सी रोय, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39321, ए के शुक्ला, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39325, प्रदीप कुरुप, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39328, एम सी राव, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39331, एस महरोत्रा, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39338, सुरेश गुप्ता, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39339, बी एस ठाकर, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39342, राजेश सहाय, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39356, राजीव मैथ्यूज, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39362, जी रविन्द्रन, ए एस सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39366, बी चक्रवर्ती, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39370, अजय यादव, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39371, के ईश्वरन, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39373, बी जॉसफ, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39375, राजीव वर्मा, ए एस सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39379, अवनीश शर्मा, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39380, पी एस राजेश्वर, आर्टी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39395, एस पुरी, ए एस सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39399, एच एस संधू, ए ई सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39404, रविन्द्र परसी, ए ई सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39418, ए के त्यागी, ए ई सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39428, अमरजीत सिंह, ए ई सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39431, जी के पाठक, ए ई सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-39200, करण सिंह, ए सी, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41054, एल पद्मनाभन, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41042, आर सुरेश, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41044, ए के दीक्षित, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41052, डी छोटानी, ई एम ई, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41055, के एस चौहान, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2005  
 आई सी-41058, के टी डडुपा, इंजीनियर्स, 01 फरवरी 2005  
 एस एल-2558, के मूर्धा एस आर, एस एल क्यू एम, 01 फरवरी 2005  
 एस एल-2587, जसवन्त सिंह, एस एल आर ओ, 01 फरवरी 2005  
 एस एल-2693, एस बी चाएल, एस एल आर ओ, 01 फरवरी 2005  
 एस एल-2704, एन एम कार्थिक, एस एल बी एस ओ, 01 फरवरी 2005
- मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)
- आई सी-41766, वाई अब्बी, ए सी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41671, टी के थौमस, आर्टी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-45014, आर एस चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2003  
 आई सी-45057, जे गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2003  
 आई सी-41343, कुलदीप शर्मा, आर्टी, 18 जून 2003  
 आई सी-41396, ए कुमार, आर्टी, 18 जून 2003  
 आई सी-41743, एम एस जामवाल, आर्टी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41711, एस के साहू, आर्टी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41115, आर एस पी सलवान, आर्टी, 18 जून 2003  
 आई सी-41199, प्रताप सिंह, आर्टी, 18 जून 2003  
 आई सी-43194, रंजीत सिंह, इंजीनियर्स, 19 जून 2003  
 आई सी-41716, एस के सिंह, आर्टी, 17 दिसम्बर 2003  
 आई सी-41699, आर एस शिवरेन, इन्ट, 17 दिसम्बर 2003

आई सी-41146, जी एस मेहता, इन्द, 18 जून 2003	आई सी-55496, गुर मोहिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-41317, पी वेंकटेश्वरलू, इन्द, 18 जून 2003	आई सी-57769, रोहित यादव, आर्टी
आई सी-45136, के बी एस खुराना, इन्द, 10 नवम्बर 2003	--16 दिसम्बर 2004
आई सी-41642, रवीन्द्रन, इन्द, 17 दिसम्बर 2003	आई सी-56070, रोहित श्रीवास्तव, एएससी
आई सी-45053, बाबूल चन्दा, आर्टी, 26 अप्रैल 2003	आई सी-56077, परवीन दहिया, एएससी
आई सी-55578, विकास बधवार, ए ए डी	आई सी-56082, बिभूति नाथ झारा, आर्टी
आई सी-57548, शशांक कुशवाहा, आर्टी	--05 मई 2005
आई सी-55628, राजीव शर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-58623, अभिषेक भूषण देव, इन्फैन्ट्री
आई सी-55743, धीरेन्द्र मलिक, इन्फैन्ट्री	आई सी-58671, रजनीश गिरि, इन्फैन्ट्री
आई सी-55744, विकास शर्मा, सिग्नल्स	आई सी-58847, टी राऊल, आर्टी
आई सी-55745, असित कुमार मोहन्ती, मैक इन्फैन्ट्री	--12 जून 2005
आई सी-55746, राजेश रावत, इन्फैन्ट्री	स्थायी कमीशन (एस एल) कप्तान से मेजर
आई सी-55845, मोहित समीर नारायण, एओसी	एसएल-4744, अनुपम गुप्ता, एसएल/एर्डी/बी/आर/एएसडब्ल्यू
आई सी-55874, मनिष कुमार गोसाई, इन्फैन्ट्री	--16 दिसम्बर 2004
आई सी-55891, राकेश हमदर्द, एओसी	अजय गोयल उप निदेशक एम एस 8 सी
आई सी-55900, अमित विक्रम सिंह, ईसी	
आई सी-55924, लक्ष्मन सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	
आई सी-55949, अरुण बारा, इन्फैन्ट्री	
	--16 दिसम्बर 2004
आई सी-56061, हरि बहादुर थापा, इन्फैन्ट्री	सेना सचिव शाखा
आई सी-56103, नरेन्द्र सिंह राऊतेला, इन्फैन्ट्री	सं. 157, दिनांक 24 फरवरी 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्तति करते हैं :-
आई सी-56124, विवेक भण्डारी, इन्फैन्ट्री	नियमित सेना
आई सी-56138, अशोक कुमार महाराणा, एएडी	स्थायी कमीशन
	ब्रिगेडियर के मूल रैंक में
आई सी-54565, श्रीजीत के, आर्टी	नाम, आई सी, आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-58379, मुकुल चहूँदा, मैक इन्फैन्ट्री	कर्नल थम्बुराज एन, एसएम (आईसी-23276), इंजीनियर्स (जीसी), 31 मार्च 02 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अगस्त 97 से दी जाएगी।
आई सी-56677, राजेश गुप्ता, इंजीनियर्स	कर्नल आर के चौहान, एसएम, बी एस एम (आईसी-32857), इन्फ, 1 जुलाई 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 मार्च 03 से दी जाएगी।
आई सी-46838, कौशिक नन्दी, इन्फैन्ट्री	कर्नल अभिजित साहा, (आईसी-27772), आर्टी, 14 अप्रैल 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 अगस्त 03 से दी जाएगी।
आई सी-54038, विक्रांत जैन, आर्टी	कर्नल डी एस कुलर, (आईसी-33000), 4 हार्स, 16 अप्रैल 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 अक्टूबर 03 से दी जाएगी।
आई सी-54066, अशोक मिश्रा, आर्टी	
आई सी-54222, सचिन वशिष्ठ, एएससी	
आई सी-54231, देब कुमार बोस, आर्टी	
आई सी-55267, विजय कुमार गौर, एएससी	
आई सी-55495, अभय सिंह देव, एसी	

कर्नल आर आर के नायर, (आईसी-33059), आर्टी, 19 अप्रैल 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 नवम्बर 03 से दी जाएगी।

कर्नल एस के धवन, (आईसी-30126), सिंह, 30 मई 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 मार्च 04 से दी जाएगी।

कर्नल आई ए खान, (आईसी-30247), ए ई सी, 29 जनवरी 05 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 अप्रैल 04 से दी जाएगी।

कर्नल विक्रम सिंह, (आईसी-31567), इंजीनियर, 29 दिसम्बर 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 अप्रैल 04 से दी जाएगी।

कर्नल आई जे कोशी, (आईसी-23011), आर्टी, 02 अक्टूबर 00 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 97 से दी जाएगी।

एन के फूकन  
संयुक्त निदेशक, एम एस (एम्स)

**एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)  
(स्थाई कमीशन)**

सं. 158, दिनांक 27 फरवरी 2006--भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी) (एन-II)/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आई एच क्यु/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की (वायु यातायात नियंत्रण) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिटेनेट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिटेनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख

हरमीत कौर, 05313जेड, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी) (एन-II)/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आई एच क्यु/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की (एक्स शाखा लोजेस्टिक्स काडर) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिटेनेट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिटेनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख

टी शंकरम, 05532वाई, 01 जुलाई 04, 16 जुलाई 05

के एस आर आर पी मुरति, 05533जेड, 01 जुलाई 04, 01 अगस्त 05

ए के रोय, 05534ए, 01 जुलाई 04, 16 जुलाई 05

ए के पंचाल, 05531डब्ल्यू, 01 जुलाई 04, 01 अगस्त 05

शिपा खना, 05474आर, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

स्वाति तोतावर, 05476डब्ल्यू, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

शिवानी, 05477वाई, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

सरोज सिंह, 05475टी, 11 अगस्त 03, 26 दिसम्बर 04

जे के अरोड़ा, 05478जेड, 22 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

अंकित पांडे, 05451एन, 01 जनवरी 04, 01 अप्रैल 05

एन प्रवीन, 05454डब्ल्यू, 01 जनवरी 04, 16 मई 05

प्रवीन कुमार, 05357जेड, 01 जनवरी 03, 16 दिसम्बर 04

अखिल पांडे, 05358ए, 01 जनवरी 03, 16 दिसम्बर 04

एस एम अगस्टीन, 05347ए, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

स्वेता सेठी, 05343टी, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

भावना सलेरिया, 05346जेड, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

परमजित सिंह, 05350एच, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

पुजा राजपुत, 05352एन, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

रमिन्द्रा सिंह, 05344डब्ल्यू, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

प्रियंका गुप्ता, 05345वाई, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

बरखा राठोड़, 05399डब्ल्यू, 10 फरवरी 03, 16 दिसम्बर 04

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी) (एन-II)/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आई एच क्यु/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की (इंजीनियरिंग शाखा निर्माता कोर) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिटेनेट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिटेनेट के पद पर पदोन्नति की तारीख

नवीन नायर, 42184वाई, 15 जुलाई 2000, 15 जून 02

एन जे मन्नाल, 42228वाई, 02 जुलाई 2001, 02 दिसम्बर 03

आर नगेन्द्रा, 42233एच, 02 जुलाई 2001, 17 नवम्बर 03

समीता मोहन्ता, 42235एन, 02 जुलाई 2001, 17 अक्टूबर 03

बी सावन्त, 42242बी, 02 जुलाई 2001, 17 मई 03

विजय सक्सेना, 42243एफ, 02 जुलाई 2001, 17 दिसम्बर 03

प्रदीप कुमार, 42246एन, 02 जुलाई 2001, 02 सितम्बर 03

मन्जु कुमारी, 42247आर, 17 जुलाई 2001, 17 दिसम्बर 03

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना की (इंजीनियरिंग शाखा निर्माता कोर) में निम्नलिखित सब-लेफिटेनेट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफिटेनेट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख

सुनीता महरोत्रा, 42536वाई, 01 जनवरी 04

मयंक मितल, 42537जेड, 01 जनवरी 04

राजेश पी, 42538ए, 01 जनवरी 04

आदिल मोहदीन एस, 42539बी, 01 जनवरी 04

अमित पुनियां, 42540एफ, 01 जनवरी 04

तुरुण कुमार सिंह, 42541एच, 01 जुलाई 04

मिलन अरविन्द, 42542के, 01 जुलाई 04

राष्ट्रपति, नौसेना आदेश 79 के 127 और रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या एन सी/3056/एन एच क्यू/3182/डी(एन-2), दिनांक 10 जून 77 के अधीन भारतीय नौ सेना की इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना निर्माता कोर) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

(नौसेना शाखा)

स्थायी कमीशन

सब लेफिनेन्ट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तिथि

नितीन सक्सेना, 42248टी, 01 जनवरी 2001, 01 जून 2003

पी श्रीकुमार, 42249डब्ल्यू, 01 जनवरी 2001, 16 मई 2003

के एस एन कुमार, 42250वाई, 01 जनवरी 2001, 16 जून 2003

वी एस स्वामीनाथन, 42251जेड, 01 जनवरी 2001, 16 फरवरी 2003

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी) (एन-II)/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की (शिक्षा शाखा) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिनेन्ट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

नवीन कुमार आर के, 70503एच, 09 फरवरी 04, 09 मार्च 05

विजय लक्ष्मी, 70487वाई, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

पी एस सुदन, 70498वाई, 09 फरवरी 04, 09 मई 05

के पी अजेश, 70499जेड, 09 फरवरी 04, 09 फरवरी 05

जी रामाचन्द्रन, 70500ए, 09 फरवरी 04, 09 मार्च 05

मानु वीक्र, 70501बी, 09 फरवरी 04, 09 मई 05

प्रमोद मैनन, 70502एफ, 09 फरवरी 04, 09 जून 05

माधव टी विठ्ठल, 70504के, 09 फरवरी 04, 09 फरवरी 05

वी डी हसीनम, 70485टी, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

वी एस यादव, 70494एन, 21 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

योगीता रानी, 70496टी, 24 अगस्त 03, 24 दिसम्बर 04

वी वी पालगोंकार, 70483एन, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

एम वी पथकर, 70484आर, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

ज्योदीप देव, 70486डब्ल्यू, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

वात्शला सिंह, 70488जेड, 11 अगस्त 03, 11 फरवरी 05

प्रदीप देवनाथ, 70490बी, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

के आर सत्रीनाथ, 70493के, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

एन के महावर, 70477के, 10 फरवरी 03, 16 दिसम्बर 04

के के जी रेहडी, 70480के, 10 फरवरी 03, 16 दिसम्बर 04

गिरिश गोपीदास, 70481एच, 11 अगस्त 03, 11 जनवरी 05

अमित अहलावत, 70482के, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

गणेश एस गायकवाड, 70491एफ, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

एस राजकुमार, 70492एच, 11 अगस्त 03, 16 दिसम्बर 04

ए के शर्मा, 70495डब्ल्यू, 21 अगस्त 03, 21 दिसम्बर 04

अब्दुल रशिद करिम, 70479बी, 10 फरवरी 03, 16 दिसम्बर 04

नवीन कृष्ण चन्द्रा, 70478ए, 10 फरवरी 03, 16 दिसम्बर 04

लेन्जी पुत्तीता, 70474टी, 12 अगस्त 02, 16 दिसम्बर 04

भारत के राष्ट्रपति, भारतीय नौसेना की एक्स शाखा (नौ सेना की उड़ान केंद्र) में नौ सेना आदेश 56/80 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिनेन्ट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

हरदीप सिंह, 05108एच, 01 जुलाई 01, 01 जुलाई 03

एस एस रेड्डी, 05208के, 01 जुलाई 02, 01 अगस्त 04

भारत के राष्ट्रपति, नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4 (1) यू एस (एम पी/डी) (एन-II)/2004, दिनांक 11 मार्च 05 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र सं. एन ए/3102 पोलसी दिनांक 14 मार्च 05 के अन्तर्गत भारतीय नौ सेना की (उड़ान केंद्र) में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

सब लेफिनेन्ट का नाम, वैयक्तिगत सं., कमीशन की तारीख, लेफिनेन्ट के पद पर पदोन्नति की तारीख

सरवेश, 05277टी, 01 जनवरी 03, 16 दिसम्बर 04

अरुण नरुका, 05281ए, 01 जनवरी 03, 16 दिसम्बर 04

एस के अग्निहोत्रि, 05292ए, 01 जनवरी 03, 16 दिसम्बर 04

निनोद एस पवार, 05388डब्ल्यू, 01 जुलाई 03, 16 दिसम्बर 04

जार्ज मैथ्यू

उप निदेशक (सी एवम् जे)

कार्मिक निदेशालय

### वायु शाखा

सं. 159, दिनांक 28 फरवरी 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से पारिभारिकी शाखा में स्थानांतरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता

उसी प्रकार मानी जायेगी मानो उसे मूल कमीशन ही पारिभारिकी शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को बायु सेना सूची में फ्लाइंग अफसर जे.पी पुलकेशी (27764) पारिभा. व फ्लाइंग अफसर ब्राजेश कुमार (28247) पारिभा. के मध्य रखा जायेगा। अफसर 02 नवम्बर 04 से उड़ान प्रशिक्षण से निलम्बन वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा.से.मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/27725/पी.ओ-3ई, दिनांक 03 अगस्त 2005।

फ्लाइंग अफसर पी मल्हौता (27725) उड़ान (पायलट) से पारिभारिकी शाखा में दिनांक 02 नवम्बर 04।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानांतरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जायेगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा से प्राप्त हुआ है। अफसर को बायु सेना सूची में फ्लाइंग अफसर एस वी के पिल्लै (27265) प्रशा. व फ्लाइंग अफसर बी सिंह (27240) प्रशा. के मध्य रखा जायेगा। अफसर 14 जुलाई 05 से उड़ान प्रशिक्षण के योग्य न पाने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का

हकदार नहीं होगा। वा.से.मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/27208/पी.ओ-3ई, दिनांक 30 अगस्त 05।

फ्लाइंग अफसर राजेश पुनिया (27208) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 14 जुलाई 05 से।

पी सिंह  
विंग कमाण्डर  
जे डी पी ओ-3ई

थल सेना शाखा  
विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं. 160, दिनांक 22 फरवरी 2006--निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखी हुई दिनांक से सेवानिवृत्ति हो गये हैं :--

श्री सुखलाल वर्मा --31 मई 2005 (अपराह्न)  
सहायक कार्यपालक अभियन्ता

एन के कश्यपीरा  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th March 2006

No. 146, dated 22nd February 2006.—The President is pleased to appoint Shri V. Somasundaran, IAS (KL:79) on transfer from the Govt. of Kerala, as Joint Secretary in the Department of Defence Production, Ministry of Defence w.e.f. 21.11.2005 (FN) upto 20.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

In terms of DOP&T OM No. 4/7/2003-CS.I dated the 10th June, 2005 followed by OM No. 4/13/2001-CS.I dated the 22nd December, 2005, the President is pleased to appoint Shri M. M. Singh (CSL No. 2193) to the Grade-I of the CSS (Under Secretary) on regular basis for the year 1990, w.e.f. 01.08.1991, until further orders on terms and conditions laid down in DOP&T OM No. 4/9/2000-CS.I dated the 27th July, 2001. His name has been included at S. No. 9A between Ms. Anita Patheja (CSL No. 2187) and Shri M. J. Thirunavukarsu (CSL No. 2203).

2. In terms of DOP&T OM No. 4/7/2003-CS.I dated the 10th June, 2005 followed by DOP&T OM No. 4/13/2001-CS.I dated the 22nd December, 2005, the President is pleased to appoint Shri M. M. Singh (CSL No. 2193) as Deputy Secretary w.e.f. 09.08.1999 on personal/ad-hoc basis until furthers, by upgrading the post of Under Seeretary held by him, on the terms and conditions laid down in DOP&T OM NO. 29/4/2001-EO(MM.I) dated the 12th September, 2001.

3. The President is further pleased to appoint Shri M. M. Singh, DS (on personal/ad-hoc basis) as Deputy Secretary on adhoc basis w.e.f. 25.03.2004 in the Minsitry of Defence until further orders on the terms and conditions laid down in DOP&T OM No. 21/11/2004-CS.I dated the 25th March, 2004.

The President is pleased to appoint Shri A.V. Bagur, CSS, Section Officer borne on the strength of the Department of Revenue, Ministry of Finance to Grade I of the CSS (Under Secretary) on adhoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 20.01.2006 (FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/24/2005-CS.I dated 17.01.2006.

2. The appointment of the above officers as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions:—

- (V) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (VI) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Textiles to Grade I of the CSS (Under Secretary) on adhoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 30.01.2006 (AN),

until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/24/2005-CS.I dated 17.01.2006.

2. The appointment of the above officers as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Ajay Saxena, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources, to Grade I of the CSS (Under Secretary) on adhoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 01.02.2006 (FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/24/2005-CS.I dated 17.01.2006.

2. The appointment of the above officers as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions:—

- (iii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (iv) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VIJAYARAGHAVAN  
Under Secy.

## AIR BRANCH

No. 147, dated 28th February 2006.—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001.

INDIAN AIR FORCE

LOGISTICS BRANCH

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

Fg Offr Baishali Banerjee (27802), w.e.f. 20 Dec 2003.

S SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

No. 148, dated 22nd February 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the following Grade 'C' Stenographers borne on the CSSS Cadre of Minsitry of Defence as Private Secretary [Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSS] in the same Ministry on ad-hoc basis for the further

period mentioned against each or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier:—

Name of the Officer, from, to

Shri J. P. Mathur, 01.01.2006—28.02.2006

Shri Rajinder Pd. Sharma, 01.01.2006—28.02.2006

Shri Narender Chadha, 01.01.2006—28.02.2006

Shri Harvinder Chawla, 01.01.2006—28.02.2006

G. VIJAYARAGHAVAN  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 149, dated 27th February 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12096A Capt Oommen Nainan, 20 Mar 2003

DS-12105W Capt (Ms) Rupinder Kaur, 07 Jun 2003

DS-12120L Capt Satisha TS, 05 Mar 2004

DS-12123Y Capt Ratandeep Singh Ahuja, 08 Mar 2004  
DK TANEJA  
Maj Gen  
Addl DGDS

(FINANCE DIVISION)

No. 150, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to continue the appointment of Shri S. P. Kapoor, Grade 'C' Stenographer borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-hoc basis in this Division for a further period from 01.01.2006 to 28.02.2006 or until further orders whichever is earlier.

D. K. PANDEY  
Director (Fin/Estd.)

AIR BRANCH

No. 151, dated 28th February 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (on probation), wef 29 Jun 2005. They are granted ante date wef the dates state against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr Neelendra Kumar Yadav (28132) AE(L), Sajjad Khan (27861) AE(L), Ashok Singh Budhwar (28110)

AE(M), Chandan Chattopadhyay (28417) AE(M), N Shantha Murthy (28425) AE(L), Ghanshyam Ojha (28426) AE(L), Raja Padur Thiruvengadachari (28418) AE(M), Praveen Kumar (28121) AE(L), Sachin Monga (28124) AE(L), Jayagopal Saravanan (28428) AE(L), Sharath Chandra Elampulassery Kalarikkat (28113) AE(M), MV Rama Chandra Praveen (28123) AE(L), Mahipal (28429) AE(L), Jaskaran Singh Bedi (28115) AE(L), MK Karthikeyan (28119) AE(L), Abhishek Gautam (28419) AE(M), Prabhu Dayal Jangir (28427) AE(L), Saurabh Singh Chauhan (27927) AE(L), Ajit Kumar Vasudevan (28127) AE(L), Biju B (28163) AE(L), Ankur Navodit (28133) AE(L), Aaish Kapoor (28130) AE(L), Guruprakash Nagarajan (28114) AE(M), Ajay Kumar Thakur (28122) AE(L), Pambungal K Sreemahesh (28161) AE(L), Kunal (28104) AE(M), Anoop Ramachandra (28116) AE(L), Ramakrishnan Ramaratnam (28431) AE(L), Lalit Kishore Pareek (28420) AE(M), Bhawesh Kumar Upadhyay (28430) AE(L), Rajesh Kumar Sharma (28432) AE(L), A Chandrasekar (28111) AE(M), Sanjeev Kumar Singh (28421) AE(L), Prabhu Shankar S (28136) AE(L), Devender Singh Tomar (28433) AE(L), Suresh Kumar Reddy Kommareddy (28120) AE(L), Annamalai Ramasamy (28422) AE(M), Pulpra Abhimanyu Menon (28105) AE(M), Balakrishnan Sandeep Nair (28107) AE(M), Byju Govindan Naduvilekkandy (28109) AE(M), Nokdenpong Jamir (28129) AE(L), Naveen Vashisth (28112) AE(M), Nitin Saini (28118) AE(L), Sandeep G (28134) AE(L), Shyam Sundar Sahu (28434) AE(L), Kasiviswanathan M (28423) AE(M), Kumar Rajeev Ranjan (28436) AE(L), Jakkamsetty Sreekanth (28131) AE(L), Devkanta Pal (28137) AE(L), Kesrale Chandrashekhar Suresh (28106) AE(M), Krishnasamy Veerachamy (28435) AE(L), Ganesula Suresh (28126) AE(L), Debabrata Pradhan (28424) AE(M), Aditya Prakash Pandey (28437) AE(L), Jaskaran Singh Jattana (28438) AE(L), Mohamed Ibrahim M (28162) AE(L), Pankaj Rajain (27879) AE(L), Preetham Shetty (27824) AE(M), S Asuvathaman (28117) AE(L), Hivare Sachin Bhimaro (27844) AE(M), Rajneesh Thota (27909) AE(L) ante date w.e.f. 29 Jun 2003.

S SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 152, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Madan Mohan Singh (No. 13614734K now JC-413014M), 01 Oct 2005

Hav Bijander Singh (No. 13617239W now JC-413015P), 09 Oct 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Shri Pal (No. 13617264P now JC-413016X), 23 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Vikram Singh Chahar (No. 13616602P now JC-413017A), 01 Nov 2005

Hav Churh Singh (No. 13615021L now JC-413018H), 11 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hanuman Prasad Tewari (No. 13616235N now JC-413019L), 11 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 13616397Y now JC-413020A), 10 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Arbinder Singh (No. 13616428N now JC-413021H), 11 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sham Lal (No. 13616515F now JC-413022L), 11 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

#### THE SIKH REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Hardev Singh (3386589X now JC-499660L), 20 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Bhupinder Singh (3385084P now JC-499661N), 28 Oct 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sawinder Singh (3385936Y now JC-499662W), 13 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mohan Singh (3386850M now JC-499663Y), 07 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rajinder Singh (3385104X now JC-499664F), 28 Oct 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Gurmail Singh (3386515H now JC-499665K), 07 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Gurmukh Singh (3387418X now JC-499666M), 09 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Karamjit Singh (3384381W now JC-499667P), 07 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Amrit Singh (3388797L now JC-499668X), 04 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Nidhan Singh (3385733P now JC-499669A), 06 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

##### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Palwinder Singh (3386268A now JC-499670P), 05 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Clk Udit Pal (3385234A now JC-499671X), 05 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Clk Kabal Singh (3386090P now JC-499672A), 06 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

#### THE DOGRA REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Charanjeet Singh (3984692F now JC-520224K), 18 Apr 2005

Hav Rakesh Kumar (3990555Y now JC-520225M), 01 May 2005

Hav Kulvir Singh (3984715X now JC-520226P), 01 May 2005

Hav Nek Ram (3983175X now JC-520227X), 16 Jul 2005

Hav Suresh Kumar (3986469W now JC-520228A), 20 Jul 2005

Hav Santosh Chand (3983205K now JC-520229H), 10 Aug 2005

Hav Sushil Kumar (3983113X now JC-520230X), 14 Nov 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balwant Singh (3983220Y now JC-520231A), 01 Sep 2005

Hav Satish Kumar (3983235F now JC-520232H), 01 Sep 2005

Hav Dharan Singh (3984346L now JC-520233L), 01 Oct 2005

Hav Rajender Parsad (3984056M now JC-520234N), 01 Oct 2005

Hav Lekh Raj (3984061Y now JC-520235W), 01 Oct 2005

Hav Ramesh Kumar (3984196A now JC-520236Y), 01 Oct 2005

Hav Nand Lal (3984205W now JC-520237F), 01 Oct 2005

Hav Joginder Singh (3983367P now JC-520238K), 28 Nov 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub/Clk

Hav Balikaran Kumhar (3985782P now JC-520239M), 01 Nov 2005

#### THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Mohan Singh (4065106Y now JC-529913M), 20 Apr 2005

Hav Digvijay Singh (4069000K now JC-529914P), 13 Jun 2005

Hav Anand Singh (4068738P now JC-529915X), 01 Jul 2005

Hav Rajendra Kumar (4064362F now JC-529916A), 01 Jul 2005

Hav Gopal Singh (4065965K now JC-529917H), 18 Jul 2005/01 July 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Vijay Singh (4068448X now JC-529918L), 14 Jul 2005/01 July 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Chander Mani (4064754P now JC-529919N), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mahipal Singh Bisht (4068467H now JC-529920H), 25 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sarop Singh (4065206K now JC-529921L), 19 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Anurudh Kumar (4071697F now JC-529922N), 01 Sep 2005

Hav (Clk) Pratap Singh Yadav (4071873N now JC-529923W), 01 Sep 2005

Hav (Clk) Tek Chand (4065040N now JC-529924Y), 01 Sep 2005

#### THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Amarjit Singh (4465472W now JC-509295L), 09 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2005).

Hav Bahadur Singh (4465873L now JC-509296N), 30 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2005).

Hav Jagjiwan Singh (4467490X now JC-509297W), 27 Sep 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 May 2005).

Hav Satpal Singh (4467502F now JC-509298Y), 25 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 28 Jun 2005).

Hav Paramjit Singh (4466127P now JC-509299F), 30 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jul 2005).

Hav Manjit Singh (4466454A now JC-509300L), 09 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 Jul 2005).

Hav Jaspal Singh (4467015F now JC-509301N), 10 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2005).

Hav Satnam Singh (4466221Y now JC-509302W), 25 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Aug 2005).

Hav Nirmal Singh (4467505P now JC-509303Y), 20 Sep 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Aug 2005).

Hav Kulwant Singh (4465209L now JC-509304F), 12 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2005).

Hav Karam Singh (4265966W now JC-509305K), 12 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2005).

Hav Lakhwinder Singh (4466328N now JC-509306M), 12 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2005).

Hav Surinder Singh (4467359A now JC-509307P), 03 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Sep 2005).

Hav Kuldip Singh (4463293X now JC-509308X), 01 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005).

Hav Major Singh (4460834H now JC-509309A), 01 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005).

#### THE RAJPUTANA RIFLES

##### To be Nb Sub

Hav Satyavir Singh (No. 2886213H now JC-469819W), 01 Nov 2005/S-26 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 2004 without effect on pay & allces).

Hav Surgian Singh (No. 2879083H now JC-469820L), 19 Mar 2005

Hav Chain Singh (No. 2877872W now JC-469821N), 20 Sep 2005

Hav Ravinder Singh (No. 2881075H now JC-469822W), 01 Oct 2005

Hav Surendra Singh Nathawat (No. 2885548N now JC-469823Y), 18 Oct 2005/S-01 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay & allces).

Hav Pritam Singh (No. 2885896P now JC-469824F), 01 Oct 2005

Hav Mahipal (No. 2879137Y now JC-469825K), 01 Nov 2005

Hav Jabar Singh (No. 2881102F now JC-469826M), 01 Nov 2005

Hav Girdhari Ram Jajara (No. 2882140K now JC-469827P), 01 Dec 2005

Hav Mahender Singh (No. 2880282H now JC-469828X), 01 Dec 2005

Hav Ashok Kumar (No. 2890741K now JC-469829A), 01 Dec 2005

##### To be Nb Sub (Clerk)

Hav Clk Dildar Singh (2881558A now JC-469830P), 01 Oct 2005

Hav Clk Dharmvir (2881559H now JC-469831X), 01 Nov 2005

Hav Clk Rameshwar (2881563L now JC-469832A), 01 Nov 2005

Hav Clk Prem Prakash Yadav (2881564N now JC-469833H), 01 Nov 2005

Hav Clk Girdhari Singh Bankawat (2881539P now JC-469834L), 01 Dec 2005

##### To be Nb Sub

Hav Pooran Singh (No. 2881006M now JC-469799N), 11 Sep 2005/S-08 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jul 2005 without effect on pay & allces).

Hav Puran Singh (No. 2879989N now JC-469800X), 01 Jul 2005

Hav Krishan Singh Rajput (No. 2880104A now JC-469801A), 01 Jul 2005

Hav Rajbir (No. 2880226K now JC-469802X), 07 Jul 2005

Hav Bhagirath Singh (No. 2877297A now JC-469803N), 10 Jul 2005

Hav Vijay Bahadur Singh (No. 2880897N now JC-469804N), 26 Sep 2005/S-01 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).

Hav Bhagwan Singh (No. 2881720M now JC-469805W), 17 Oct 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Udal Singh (No. 2885173A now JC-469806Y), 20 Aug 2005

Hav Anil Kumar (No. 2888683M now JC-469807F), 01 Sep 2005

Hav Shyam Singh (No. 2880939P now JC-469808K), 07 Sep 2005

Hav Gajraj Singh (No. 2881866A now JC-469809M), 06 Oct 2005/S-07 Sep 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rohtas Singh (No. 2879275A now JC-469810F), 11 Sep 2005

Hav Amlesh Singh (No. 2879579X now JC-469811K), 21 Sep 2005

Hav Ram Chander Singh Yadav (No. 2879906X now JC-469812M), 01 Oct 2005

Hav Tilak Singh Tomar (No. 2878289N now JC-469813P), 01 Oct 2005

Hav Sumer Singh (No. 2883497M now JC-469814X), 05 Oct 2005

Hav Anand Ram Jat (No. 2879928W now JC-469815A), 01 Nov 2005

Hav Subhash Chander Katewa (No. 2879934K now JC-469816H), 16 Nov 2005/S-01 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2879851Y now JC-469817L), 01 Nov 2005

Hav Nathu Ram Ogara (No. 2881674H now JC-469818N), 01 Dec 2005

#### JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Narinjan Singh (3382272L now JC-580175W), 15 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005).

Hav Sunil Dutt, SM (13749857K now JC-580177F), 24 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 14 Sep 2005).

Hav Balwant Singh (13747992Y now JC-580178K), 16 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Madan Lal (13747685F now JC-580179M), 13 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Parmodh Singh (13747897M now JC-580180F), 13 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Onkar Singh (13748229H now JC-580181K), 01 Oct 2005

Hav Kehar Singh (13749008H now JC-580182M), 01 Oct 2005

Hav Onkar Chand (13749458A now JC-580183P), 01 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Arun Kumar Dixit (13749745K now JC-580174N), 01 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005).

Hav Clk Brahmajit Singh (13750496H now JC-580176Y), 01 Sep 2005

Hav Clk Dwijendra Pratap Singh (13749729M now JC-580184X), 14 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 26 Oct 2005).

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Dhan Singh (3178477Y now JC-489757H), 06 Sep 2005

Hav Shatender Singh Siwach (3179553M now JC-489758L), 01 Oct 2005

Hav Jaipal Singh (3179667X now JC-489759N), 01 Oct 2005

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Mange Ram (3177654F now JC-489760H), 01 Nov 2005

#### JAK LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Karan Singh (9086243A now JC-593366K), 30 May 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2005)

Hav Raj Kumar (9086892L now JC-593367M), 18 May 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005)

Hav Dev Raj (9087357X now JC-593368P), 23 May 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Mar 2005)

Hav Jagdish Singh (9087330A now JC-593369X), 28 Jun 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2005)

Hav Nisar Ahmad Wani (9089413K now JC-593370P), 02 Jun 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005)

Hav Abdul Majid (9088324Y now JC-593371X), 02 Jun 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Feb 2005)

Hav Deputy Raj (9088475X now JC-593372A), 23 May 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Mar 2005)

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav A Naguthevan (2585868K now JC-439656Y), 01 Oct 2005\*

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shaik Dastagiri (2591424W now JC-439652H), 22 Nov 2005\*

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Prabakaran V (2591152F now JC-439653L), 26 Nov 2005\*

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav P Arumugam (2591153K now JC-439654N), 22 Nov 2005\*

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhaskar Acharya (2590023P now JC-439649H), 29 Aug 2005

Hav Sudhakaran PS (2593152A now JC-439655W), 01 Sep 2005

Hav Gopakumar V (2587305H now JC-439662M), 01 Oct 2005

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Jadhav Vijay Vitthal (No. 2782470N now JC-459577L), 05 Sep 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sankpal Krushnat Maruti (No. 2784848N now JC-459578N), 11 Oct 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Yadav Rangrao Bandu (No. 2784287K now JC-459579W), 21 Nov 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shankareppa Biradar (No. 2783390H now JC-459580L), 31 Oct 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kothawale Dattu Atmaram (No. 2781707N now JC-459581N), 03 Nov 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Naik Rajan Narhar (No. 2782881M now JC-459582W), 25 Oct 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hanif Ali (No. 2782278K now JC-459583Y), 28 Nov 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Basavaraj Hundekar (No. 2782437W now JC-459584F), 14 Nov 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Upender Singh Thakur (No. 2783653W now JC-459585K), 15 Nov 2005\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clerk

Hav Clk Bijender Singh (2983985K now JC-479671W), 01 Sep 2005

Hav Clk Shesadeba Dalei (2984505F now JC-479672Y), 01 Sep 2005

Hav Clk Ram Chandra Singh (2983978N now JC-479673F), 01 Oct 2005

Hav Clk Pradip Kumar (2984517W now JC-479674K), 01 Oct 2005

Hav Clk Sarvottam Kumar (2982698N now JC-479675M), 01 Oct 2005

To be Nb Sub

Hav Bishambar Dayal (2978994F now JC-479676P), 01 Oct 2005\*

(Granted ante date seniority wef 04 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Avtar (2982201L now JC-479677X), 01 Jul 2005

Hav Mahinder Kumar (2989572W now JC-479678A), 01 Jul 2005

Hav Nahnu Lal Gurjar (2990431N now JC-479679H), 01 Jul 2005

Hav Duni Singh (2989691M now JC-479680X), 01 Jul 2005

Hav Bhagwan Singh (2984489P now JC-479681A), 01 Aug 2005

Hav Mustak Ahmed (2985426Y now JC-479682H), 01 Aug 2005

Hav Kailash Chand (2986646P now JC-479683L), 01 Aug 2005

Hav Dila Ram (2989834F now JC-479684N), 05 Sep 2005\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sharwan Singh (2990004X now JC-479685W), 01 Aug 2005

Hav Mahesh Kumar (2982707K now JC-479686Y), 01 Sep 2005

Hav Subash Chander (2982308N now JC-479687F), 01 Sep 2005

Hav Balbir Singh (2982517X now JC-479688K), 01 Sep 2005

Hav Ranjit Singh (2981643X now JC-479689M), 01 Sep 2005

Hav Gajanand Yadav (2982921M now JC-479690F), 01 Sep 2005

Hav Bhagwan Singh (2984471Y now JC-479691K), 01 Sep 2005

Hav Shiv Bhajan Singh (2983116P now JC-479692M), 01 Sep 2005

Hav Shesh Pal Sharma (2985497A now JC-479693P), 01 Sep 2005

Hav Chakrawarti Paramvir Singh (2985754M now JC-479694X), 01 Sep 2005

Hav Gajendra Singh (2982573W now JC-479695A), 01 Sep 2005

Hav Mahesh Pal (2989890A now JC-479696H), 01 Sep 2005

Hav Bane Singh Rawat (2987165P now JC-479697L), 01 Sep 2005

Hav Ummed Singh Gurjer (2980056A now JC-479698N), 01 Oct 2005

Hav Dhruv Singh Chauhan (2982393N now JC-479699W), 01 Oct 2005

Hav Rameshwar Dayal (2983594Y now JC-479700A), 01 Oct 2005

Hav Virender Singh Ahir (2983070X now JC-479701H), 01 Oct 2005

Hav Suraj Bhan (2984060A now JC-479702L), 01 Oct 2005

Hav Bhupender Singh Chauhan (2986711A now JC-479703N), 01 Oct 2005

Hav Raj Kumar Singh (2986588W now JC-479704W), 01 Oct 2005

Hav Madan Prasad (2988115W now JC-479705Y), 01 Nov 2005

Hav Rakesh Kumar (2981092X now JC-479706F), 01 Nov 2005

Hav Jai Chand (2987436F now JC-479707K), 01 Nov 2005

Hav Virendra Singh, SM (2983959H now JC-479708M), 01 Nov 2005

Hav Neh Pal (2985722K now JC-479709P), 01 Nov 2005

Hav Dinesh Singh (2985038F now JC-479710K), 01 Nov 2005

Hav Mahavir Singh (2988221P now JC-479711M), 01 Nov 2005

Hav Sushil Kumar (2978850Y now JC-479712P), 01 Dec 2005

Hav Sarvesh Singh (2983615K now JC-479713X), 01 Dec 2005

Hav Gordhan Lal Gujar (2984123X now JC-479714A), 01 Dec 2005

Hav Udayveer Singh Ragawa (2982986A now JC-479715H), 01 Dec 2005

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Narender Singh (No. 4176612Y now JC-539803L), 03 Sep 2005/01 Jun 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Singh Bisht (No. 4176896N now JC-539811K), 27 Jul 2005/01 Jul 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhuwan Singh Mudela (No. 4184151P now JC-539804N), 11 Jul 2005/13 Jun 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 4180673N now JC-539818P), 01 Aug 2005

Hav Anand Singh (No. 4182758H now JC-539835N),  
17 Oct 2005/01 Sep 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Diwan Singh (No. 4179020A now JC-539821N),  
01 Sep 2005

Hav Laxman Singh (No. 4177941F now JC-539822W),  
01 Sep 2005

Hav Bhaskar Dutt (No. 4180597M now JC-539823Y),  
01 Sep 2005

Hav Narendra Singh (No. 4182468L now JC-539824F),  
01 Sep 2005

Hav Ghan Shyam Das Yadav (No. 4181473K now JC-  
539789K), 06 Jun 2005/01 May 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 May 2005 without effect on pay and allowances).

CQMH Mohan Singh (No. 14701123F now JC-  
539806Y), 13 Aug 2005/21 Jun 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
21 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

CQMH Narayan Datt (No. 4177532N now JC-539807F),  
13 Aug 2005/01 Jul 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Virpal Singh (No. 4180463N now JC-539825K),  
01 Sep 2005

Hav Gajender Singh (No. 4180687N now JC-539826M),  
01 Sep 2005

CHM Mohan Singh (No. 4179087Y now JC-539814X),  
12 Jul 2005/01 Jul 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 4177744Y now JC-539816K),  
06 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

CQMH Ganga Giri (No. 4177788W now JC-539817M),  
02 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Bahadur Singh (No. 4177739N now JC-  
539805W), 01 Jul 2005/21 Jun 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
21 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 4177989P now JC-539792K),  
01 Jul 2005

Hav Partap Singh (No. 4174969W now JC-539790Y),  
03 Jul 2005/01 Jun 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Singh Kanwal (No. 4175487N now JC-  
539849N), 23 Oct 2005/01 Oct 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Singh (No. 4175962Y now JC-539850H),  
23 Oct 2005/01 Oct 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

CHM Kundan Singh (No. 4176097X now JC-539851L),  
23 Oct 2005/01 Oct 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Madho Singh (No. 4174362K now JC-539815A),  
30 Jul 2005/01 Jul 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Satya Deo Prasad (No. 8032421N now JC-  
539819X), 01 Sep 2005

#### NAGA REGT

Hav K Hekhavi Sema (No. 14702001K now JC-  
590169W), 28 Jun 2005/21 Apr 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
21 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

CHM K Adani Mao (No. 14702354K now JC-590170L),  
11 Jul 2005/01 May 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hom Bahadur Thapa (No. 14701018L now JC-  
590167L), 01 Jul 2005

CHM Govind Singh (No. 1477800M now JC-590168N),  
01 Jul 2005

CHM Bisue (No. 14701893N now JC-590166H), 03 May  
2005/01 Feb 2005\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

#### KUMAON REGT

Hav Kalyan Ram (No. 4180064K now JC-539812M),  
01 Jul 2005

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub (Clks)

Hav Clk Prithi Pal (2473717K now JC-429841Y), 23 Jul  
2005\*

\*(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allowances).

Hav Clk Rajender Paul Thakur (2473884A now JC-429842F), 07 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Clk A Umapathi (2481790X now JC-429843K), 01 Aug 2005

Hav Clk Kuwar Pal (2482215H now JC-429844M), 10 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedars

Hav Sultan Singh (2476154A now JC-429889M), 03 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mulkh Raj (2475125Y now JC-429890F), 24 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (2475394L now JC-429891K), 27 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Narinder Singh (2476794K now JC-429892M), 11 Oct 2005.

(Granted ante dated seniority wef 01Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Makhan Singh Ajrot (2479153H now JC-429893P), 27 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sat Pal (2475183H now JC-429894X), 13 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (2479358X now JC-429895A), 21 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 15 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhdeve Singh (2473211L now JC-429896H), 17 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 23 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Singh (2474126P now JC-429897L), 04 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 26 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Karan Malik (2472787W now JC-429898N), 03 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Girdhari Lal (2475516K now JC-429906F), 01 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar (2474847Y now JC-429905Y), 04 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jasbir Singh (2474515P now JC-429899W), 02 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Surmit Singh (2474417P now JC-429900A), 04 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Lal (2475666A now JC-429901H), 09 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Raghu Bir Singh (2476016Y now JC-429902L), 09 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amin Chand (2477165Y now JC-429903N), 08 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Agya Ram (2477181W now JC-429904W), 08 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shyam Sunder (7430601P now JC-429907K), 08 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 07 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vidya Nand (2475721L now JC-429908M), 02 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar (2479012N now JC-429909P), 08 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

**SPECIAL LIST****THE RAJPUT REGIMENT**

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub Maj (RT) Kushala Nand Sati (JC-105008L), 13 Oct 2005

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 153, dated 23rd February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY****INFANTRY****THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ratan Singh (JC-418136A), 01 Nov 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Shitole Hira Lal Bikar (JC-419344F), 11 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 15 Jun. 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lok Bahadur Adhikari (JC-419828F), 26 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Landge Vishnu Anna (JC-419477X), 21 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kunwar Singh (JC-419829K), 08 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Anant Deo Prasad (JC-419347P), 31 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satya Prakash (JC-419475M), 29 Sep 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sham Lal (JC-419795F), 11 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Vinod Kumar (JC-419237A), 18 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Brahm Prakash (JC-419432X), 05 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohanan P (JC-419607P), 18 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Raghunath (JC-419682Y), 14 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bikram Singh (JC-419858Y), 12 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Babu Lal (JC-419299A), 24 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 05 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bakhshish Singh (JC-418569X), 01 Nov 2005

Nb Sub Eappen PD (JC-419381P), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hari Ram (JC-419390W), 04 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Radhey Shyam Chaneja (JC-419417N), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nanda Kumar GS (JC-419458M), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Saju D (JC-419575X), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hareeshan TV (JC-419748X), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prem Dhoj Giri (JC-419859F), 01 Nov 2005

Nb Sub Dayanidhi Thakur (JC-419886L), 01 Nov 2005

Nb Sub Bhakta Bahadur Chhetri (JC-419912F), 01 Nov 2005

Nb Sub Mahesh Prasad (JC-419476P), 04 Dec 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajendra Singh Almiya (JC-419520N), 01 Dec 2005

Nb Sub Narendra Singh Chauhan (JC-419521W), 01 Dec 2005

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Yashwant Singh (14911268K now JC-420370P), 11 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Kunwar Pal Singh (14911271K now JC-420371X), 28 Oct 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Mohinder Singh (14911284F now JC-420372A), 02 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Munna Lal (14911309H now JC-420405A), 03 Dec 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Daya Nand (14911310X now JC-420406H), 01 Dec 2005

To be Naib Subedar (SKT)

Hav (SKT) Raghbir Singh (14901628F now JC-420369A), 11 Nov 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (SKT) wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 154, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended vide AI 11/02:—

**REGULAR ARMY**

**ARMY DENTAL CORPS**

**PERMANENT COMMISSION**

Air Cmde to be Maj Gen

DR-10273W DK Taneja, 14 Nov 2005—with notional seniority from 24 Oct 2005, without effect on pay & allowances.

PARAMJIT SINGH  
Lt Gen  
DGDS

No. 155, dated 28th February 2006.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each:—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

P Sharma (MR-06581Y)(75549), AMC—30 Jun 2004

C S Sexna (MR-06322W)(75515), AMC—24 Jul 2005

Sqn Ldr to be Wg Cdr

S Muthuvel (MR-06602K)(20962H), AMC—08 Aug 2005

Mrs Jyoti Maria (MR-07152K)(23066), AMC—15 Jul 2005

A Agrawal (MR-06326M)(21497), AMC—24 Jul 2005

A B Tiwari (MR-06408P)(20959), AMC—13 Dec 2004

**RAJESH KAMRAN**

Brig

Dy DGAFMS (Pers)

No. 156, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-37465X Lt Col Sumer Singh, Mech Inf—01 Nov 2005

IC-27620A A/Col NP Singh, Sigs—16 Dec 2004

IC-37203F Lt Col VK Sharma, Inf—16 Dec 2004

IC-34285K Lt Col SB Singh, Sigs—16 Dec 2004

IC-34227A Lt Col VB Prasad, Arty—16 Dec 2004

IC-34777H Lt Col KJS Sandhu, Arty—16 Dec 2004

IC-37489F Lt Col SD Parasher, Mech Inf—15 Nov 2005

IC-37496X Lt Col VK Gautam, Inf—17 Nov 2005

IC-37475F Lt Col SS Mankotia, Mech Inf—01 Nov 2005

IC-37467H Lt Col IB Thomas, Inf—17 Nov 2005

IC-34722Y Lt Col G Ramesh, Sigs—16 Dec 2004

IC-37498H Lt Col RK Bhardwaj, AOC—15 Nov 2005

IC-37529X Lt Col RK Avasthy, AOC—15 Nov 2005

IC-37483A Lt Col Sewa Singh, Inf—17 Nov 2005

IC-37508F Lt Col Gopal Kanal, Arty—15 Nov 2005

IC-37506W Lt Col Pravin Chopra, Arty—15 Nov 2005

IC-37468L Lt Col SS Malik, AC—15 Nov 2005

IC-38121L Lt Col BS Sambyal, Inf—09 Jun 2005

- IC-37029A Lt Col RP Mahekar, Inf—16 Dec 2004  
 IC-37860L Lt Col BK Bastia, EME—27 Oct 2005  
 IC-37526K Lt Col KK Chaudhary, AC—15 Nov 2005  
 IC-37422H Lt Col Rajinder Lal, Dhammi ASC—01 May 2005  
 IC-34545K Lt Col PK Jain, AAD—16 Dec 2004  
 IC-38200A Lt Col AK Malik, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35699H Lt Col Manobendra Roy, Inf—16 Dec 2004  
 IC-35339M Lt Col GP Kale, Inf—16 Dec 2004  
 IC-33185M Lt Col A K Jaitly, Arty—16 Dec 2004  
 IC-31207F Lt Col S S Tawde, Arty—16 Dec 2004  
 IC-37858N Lt Col Akhil Kumar, EME—27 Oct 2005  
 IC-37509K Lt Col R Wadhawan, Inf—15 Nov 2005  
 IC-37477N Lt Col R S Verma, Arty—15 Nov 2005  
 IC-25239N Lt Col D K Malakar, AOC—16 Dec 2004  
 Lt Col to be Substantive Col (By Selection)  
 IC-37018 DS Sarao, Arty—01 Feb 2005  
 IC-35509 T Jayaprakashan, Inf—01 Feb 2005  
 IC-35949 RS Sangwan, AC—01 Feb 2005  
 IC-35958 AK Pathak, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38066 Diponkar Ray, AAD—01 Feb 2005  
 IC-38074 JS Sekhon, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37541 SS Bisht, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37543 DS Sandhu, AC—01 Feb 2005  
 IC-37545 PM Ahluwalia, Guards—01 Feb 2005  
 IC-37546 Vijay Pal, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37550 MA Dsouza, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37553 S Sen Gupta, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37554 RS Grewal, AC—01 Feb 2005  
 IC-37555 VG Khandare, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37557 BS Brar, ASC—01 Feb 2005  
 IC-37561 VK Bahuguna, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37565 SS Sekhon, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37566 TS Brar, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37569 MP Singh, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37570 Rajesh Anand, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37575 Parmvir Singh, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37579 JD Suri, AOC—01 Feb 2005  
 IC-37581 VS Bhalothia, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37584 CSN Jayadev, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37593 CA Pithawalia, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37594 Harpal Singh, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37601 Manik Vaid, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37610 PH Reddy, AOC—01 Feb 2005  
 IC-37617 Tej Singh Raghav, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37630 SP Yadav, AAD—01 Feb 2005  
 IC-37632 D Kolath, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37639 HM Kavadia, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37641 KA Khan, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37645 RS Nautiyal, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37648 SK Tiwari, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37655 VG Subramanian, AOC—01 Feb 2005  
 IC-37656 RK Verma, AOC—01 Feb 2005  
 IC-37661 KS Puri, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37663 RK Pant, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37924 Mohinder Pratap, EME—01 Feb 2005  
 IC-38641 JS Menon, Guards—01 Feb 2005  
 IC-38643 RS Salaria, Arty—01 Feb 2005  
 IC-38645 Ajay Sah, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38647 Sushant Maira, AC—01 Feb 2005  
 IC-38651 B Chopra, EME—01 Feb 2005  
 IC-38653 JK Sethi, EME—01 Feb 2005  
 IC-38654 Devraj Anbu, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38655 MM Easow, AAD—01 Feb 2005  
 IC-38656 SJ Gracias, Engrs—01 Feb 2005  
 IC-38657 US Dadu, Engrs—01 Feb 2005  
 IC-38658 S Rajaram, EME—01 Feb 2005  
 IC-38663 Subhash Katoch, Sigs—01 Feb 2005  
 IC-38665 IS Suhag, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38666 A Chatterji, M/Inf—01 Feb 2005  
 IC-38668 PN Kumar, EME—01 Feb 2005  
 IC-38669 G Sankar, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38670 SK Sharma, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38672 D David, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38674 Balbir Singh, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38675 AS Puri, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38678 N Sitaramaiah, Arty—01 Feb 2005  
 IC-38679 Abhay Krishna, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38680 Sanjay Agrawal, Engrs—01 Feb 2005

IC-38681 D Kahlon, AC—01 Feb 2005	IC-38766 Sanjiv Kumar, Engrs—01 Feb 2005
IC-38682 AK Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-38767 PS Nair, Arty—01 Feb 2005
IC-38684 JB Khadikar, Sigs—01 Feb 2005	IC-38768 Rustam Patnaik, Inf—01 Feb 2005
IC-38685 VP Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-38771 GS Ranawat, ASC—01 Feb 2005
IC-38686 Vinod Kumar, AAD—01 Feb 2005	IC-38773 LM Arora, AOC—01 Feb 2005
IC-38691 JS Bedi, Arty—01 Feb 2005	IC-38774 N Audiseshaiyah, EME—01 Feb 2005
IC-38693 S Gupta, Inf—01 Feb 2005	IC-38775 Raj Rakesh, AC—01 Feb 2005
IC-38696 NP Singh, AC—01 Feb 2005	IC-38782 Sarbjit Singh, Sigs—01 Feb 2005
IC-38700 BK Jacob, Inf—01 Feb 2005	IC-38784 AP Rai, Inf—01 Feb 2005
IC-38704 AK Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-38788 CMF Prabhu, Arty—01 Feb 2005
IC-38705 KB Chand, Inf—01 Feb 2005	IC-38792 Pankaj Malhotra, EME—01 Feb 2005
IC-38706 Jagdish Singh, AOC—01 Feb 2005	IC-38795 JB Yadav, Arty—01 Feb 2005
IC-38708 A Ambre, Inf—01 Feb 2005	IC-38796 Sunil Yadav, Inf—01 Feb 2005
IC-38710 Urvindar Singh, AAD—01 Feb 2005	IC-38802 KR Chakravarti, Engrs—01 Feb 2005
IC-38711 Vinod Kumar, M/Inf—01 Feb 2005	IC-38804 IPS Rana, Inf—01 Feb 2005
IC-38714 RS Malave, AC—01 Feb 2005	IC-38810 D Soni, AAD—01 Feb 2005
IC-38718 BK Guha, Arty—01 Feb 2005	IC-38812 PK Singh, Inf—01 Feb 2005
IC-38720 AS Chowdhry, Arty—01 Feb 2005	IC-38814 Abhay Singh, Gurads—01 Feb 2005
IC-38722 C Mathson, Inf—01 Feb 2005	IC-38821 JS Kumar, AOC—01 Feb 2005
IC-38723 A Khanna, Arty—01 Feb 2005	IC-38825 DK Sharma, Inf—01 Feb 2005
IC-38725 KKN Thacker, Inf—01 Feb 2005	IC-38826 R Girish Babu, AAD—01 Feb 2005
IC-38728 MS Mahai, Inf—01 Feb 2005	IC-38832 SN Bhaduri, Arty—01 Feb 2005
IC-38729 SK Sudan, Engrs—01 Feb 2005	IC-38833 HV Singh, AC—01 Feb 2005
IC-38731 SS Lamba, AOC—01 Feb 2005	IC-38842 BK Dash, Sigs—01 Feb 2005
IC-38732 AG Kundalkar, Inf—01 Feb 2005	IC-38855 KS Kanwar, AAD—01 Feb 2005
IC-38733 VP Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-38857 AK Prehar, ASC—01 Feb 2005
IC-38736 Krishan Kumar, Inf—01 Feb 2005	IC-38871 Rajesh Sinha, Arty—01 Feb 2005
IC-38739 RK Rajput, Arty—01 Feb 2005	IC-38874 S Samaddar, AC—01 Feb 2005
✓ IC-38741 Jasvarinder Singh, AC—01 Feb 2005	IC-38879 Ashwani Kumar, AAD—01 Feb 2005
IC-38744 S Pratap, Inf—01 Feb 2005	IC-38882 AK Mukherjee, Sigs—01 Feb 2005
IC-38746 Arup Sen, Sigs—01 Feb 2005	IC-38884 SN Jha, Inf—01 Feb 2005
IC-38747 RK Saiwal, AOC—01 Feb 2005	IC-38886 Rajeev Pant, Inf—01 Feb 2005
IC-38749 SM Murari, AAD—01 Feb 2005	IC-38893 Shamsher Singh, M/Inf—01 Feb 2005
IC-38750 MM Naravane, Inf—01 Feb 2005	IC-38903 Diljit Singh, Inf—01 Feb 2005
IC-38752 PK Siwach, M/Inf—01 Feb 2005	IC-38905 SK Gupta, Arty—01 Feb 2005
IC-38758 RK Kohli, ASC—01 Feb 2005	IC-38907 Georgy Joseph, Inf—01 Feb 2005
IC-38759 Deepak Das, AAD—01 Feb 2005	IC-38918 AK Sarkar, Arty—01 Feb 2005
IC-38761 S Mamgain, Int Corp—01 Feb 2005	IC-38927 HS Sodhi, Inf—01 Feb 2005
IC-38763 SS Chaudhari, Inf—01 Feb 2005	IC-38928 AP Bam, Arty—01 Feb 2005

- IC-38933 Krishnan a, AC—01 Feb 2005                    IC-37729 B Hariharan, AOC—01 Feb 2005  
 IC-38938 Bonny Mathew, Sigs—01 Feb 2005            IC-39060 P Kumar Malik, M/Inf—01 Feb 2005  
 IC-38939 Gurinder Singh, Inf—01 Feb 2005            IC-39061 SS Randhawa, AC—01 Feb 2005  
 IC-38940 VS Saini, Arty—01 Feb 2005                    IC-39062 D Raina, Arty—01 Feb 2005  
 IC-38944 C Parmanik, Inf—01 Feb 2005                    IC-39063 VP Bhagat, EME—01 Feb 2005  
 IC-38951 OS Dagur, Inf—01 Feb 2005                    IC-39064 SM Desai, Engrs—01 Feb 2005  
 IC-38952 Avinash Singh, Inf—01 Feb 2005                    IC-39065 MB Singh, Engrs—01 Feb 2005  
 IC-38957 S Krishnan, Inf—01 Feb 2005                    IC-39069 LN Sharma, Arty—01 Feb 2005  
 IC-38963 AP Tripathi, Inf—01 Feb 2005                    IC-39070 Ranbir Singh, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38986 KC Padhy, Arty—01 Feb 2005                    IC-39071 G Pathania, Inf—01 Feb 2005  
 IC-38992 RK Misra, AOC—01 Feb 2005                    IC-39074 Raj Kapur, Sigs—01 Feb 2005  
 IC-38993 JN Singh, AOC—01 Feb 2005                    IC-39075 Kashmir Singh, ASC—01 Feb 2005  
 IC-38997 SK Sinha, Inf—01 Feb 2005                    IC-39077 Arun Bahl, M/Inf—01 Feb 2005  
 IC-39001 AK Ghosh, Arty—01 Feb 2005                    IC-39079 SS Hasabnis Inf—01 Feb 2005  
 IC-39004 TV Nafde, AC—01 Feb 2005                    IC-39081 Dilip Prasad, Inf—01 Feb 2005  
 IC-39010 SA Krishnan, Inf—01 Feb 2005                    IC-39082 UPS Pathania, M/Inf—01 Feb 2005  
 IC-39017 Yogander Singh, Inf—01 Feb 2005                    IC-39083 SK Jha, Inf—01 Feb 2005  
 IC-36000 Alok Batra, Arty—01 Feb 2005                    IC-39084 LB Chand, Sigs—01 Feb 2005  
 IC-40655 RG Kadam, EME—01 Feb 2005                    IC-39091 Pawan Anand, Arty—01 Feb 2005  
 IC-40658 Birochan Bhatt, EME—01 Feb 2005                    IC-39100 Bikram Seth, Inf—01 Feb 2005  
 IC-40664 Sarv Deep Singh, Engrs—01 Feb 2005            IC-39101 MA Oka, Inf—01 Feb 2005  
 IC-40668 Raja Puri, EME—01 Feb 2005                    IC-39102 NS Bhandari, Arty—01 Feb 2005  
 IC-40674 Ravinder Singh, Engrs—01 Feb 2005                    IC-39103 SN Rai, Inf—01 Feb 2005  
 IC-40660 Ravi Sharma, Engrs—01 Feb 2005                    IC-39104 JS Sandhu, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37679 Jason Peter, Inf—01 Feb 2005                    IC-39105 S Majumdar, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37681 Sunil K Suhag, ASC—01 Feb 2005                    IC-39106 P Arora, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37682 HS Bedi, Arty—01 Feb 2005                    IC-39108 PS James, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37683 P Pal, Inf—01 Feb 2005                            IC-39109 Manohar Thomas, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37685 Harjinderjit Singh, AOC—01 Feb 2005            IC-39110 Somnath Jha, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37687 CS Kumar, Inf—01 Feb 2005                    IC-39111 M Vijay Kumar, Arty—01 Feb 2005  
 IC-37689 GA Newton, Inf—01 Feb 2005                    IC-39117 BS Sahrawat, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37692 Deepak Gupta, Inf—01 Feb 2005                    IC-39119 SS Sandhu, Guards—01 Feb 2005  
 IC-37694 SK Sharma, Arty—01 Feb 2005                    IC-39121 VP Shahi, AOC—01 Feb 2005  
 IC-37698 OJS Khangura, Inf—01 Feb 2005                    IC-39122 AK Gupta, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37699 Swaran Singh, Int Corp—01 Feb 2005            IC-39125 Dalip Sachdev, AAD—01 Feb 2005  
 IC-37701 RP Pande, AOC—01 Feb 2005                    IC-39126 DS Chahal, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37706 Kamaljeet Singh, Sigs—01 Feb 2005                    IC-39128 RU Nandgaonkar, AAD—01 Feb 2005  
 IC-37717 US Rathore, Inf—01 Feb 2005                    IC-39130 R Chopra, Inf—01 Feb 2005  
 IC-37722 RK Sharma, Arty—01 Feb 2005                    IC-39131 AC Joshi, Inf—01 Feb 2005

IC-39132 SL Phirke, Sigs—01 Feb 2005	IC-39236 CS Sreeramulu, AOC—01 Feb 2005
IC-39135 R Bhardwaj, Guards—01 Feb 2005	IC-39250 AS Ingleshwar, Inf—01 Feb 2005
IC-39138 SK Rattan, Arty—01 Feb 2005	IC-39252 PC Paul, Arty—01 Feb 2005
IC-39140 PS Jaggi, AAD—01 Feb 2005	IC-39258 KS Sheoran, Inf—01 Feb 2005
IC-39141 Gurnam Singh, AOC—01 Feb 2005	IC-39260 JS Virk, Inf—01 Feb 2005
IC-39142 KSS Rathore, Inf—01 Feb 2005	IC-39264 HS Kaura, Arty—01 Feb 2005
IC-39144 GC Angiras, Inf—01 Feb 2005	IC-39275 SP Singh, Inf—01 Feb 2005
IC-39147 Vinod Raizada, Inf—01 Feb 2005	IC-39280 Manoj Kumar, Engrs—01 Feb 2005
IC-39156 R Bahl, AC—01 Feb 2005	IC-39283 Kanwal Kumar, A/Avn—01 Feb 2005
IC-39157 HV Sharma, Inf—01 Feb 2005	IC-39287 KS Saini, Inf—01 Feb 2005
IC-39160 A Prabhakar, Arty—01 Feb 2005	IC-39289 S Banerjee, Arty—01 Feb 2005
IC-39163 TK Ghosh, Inf—01 Feb 2005	IC-39295 PS Pannu, Inf—01 Feb 2005
IC-39164 AK Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-39299 J Bhati, M/Inf—01 Feb 2005
IC-39165 EJ Sanchis, Engrs—01 Feb 2005	IC-39311 AP Chatterjee, Inf—01 Feb 2005
IC-39171 Abhay Prasad, EME—01 Feb 2005	IC-39316 Sanjiv Sood, AC—01 Feb 2005
IC-39175 RS Khandpur, Inf—01 Feb 2005	IC-39317 Prabhat Bhatt, Inf—01 Feb 2005
IC-39180 Rajive Mishra, Arty—01 Feb 2005	IC-39319 PC Roy, Inf—01 Feb 2005
IC-39181 SD Prasad Singh, AC—01 Feb 2005	IC-39321 AK Shukla, Inf—01 Feb 2005
IC-39184 Sudam Naik, Inf—01 Feb 2005	IC-39325 Pradeep Kurup, Arty—01 Feb 2005
IC-39185 AK Sharma, Inf—01 Feb 2005	IC-39328 MC Rao, Arty—01 Feb 2005
IC-39188 RP Singh, AAD—01 Feb 2005	IC-39331 S Mehrotra, AOC—01 Feb 2005
IC-39191 Anil Ahluwalia, AAD—01 Feb 2005	IC-39338 Suresh Gupta, Arty—01 Feb 2005
IC-39195 RB Yadav, Inf—01 Feb 2005	IC-39339 BS Thakar, Inf—01 Feb 2005
IC-39204 SS Bajwa, Inf—01 Feb 2005	IC-39342 Rajesh Sahai, Inf—01 Feb 2005
IC-39207 CS Prabhu, Inf—01 Feb 2005	IC-39356 Rajeev Mathews, Arty—01 Feb 2005
IC-39208 Gurinder Singh, Inf—01 Feb 2005	IC-39362 G Ravindran, ASC—01 Feb 2005
IC-39213 SK Chawla, Inf—01 Feb 2005	IC-39366 B Chakravarty, Arty—01 Feb 2005
IC-39214 DS Tripathi, Arty—01 Feb 2005	IC-39370 Ajay Yadav, Inf—01 Feb 2005
IC-39215 TC Sen, Arty—01 Feb 2005	IC-39371 K Eswaran, EME—01 Feb 2005
IC-39216 AK Menon, Inf—01 Feb 2005	IC-39373 B Joseph, Inf—01 Feb 2005
IC-39217 RS Khanna, Inf—01 Feb 2005	IC-39375 Rajeev Varma, ASC—01 Feb 2005
IC-39222 AK Jha, AAD—01 Feb 2005	IC-39379 Avnish Sharma, AC—01 Feb 2005
IC-39223 RMS Rawat, Inf—01 Feb 2005	IC-39380 PS Rajeshwar, Arty—01 Feb 2005
IC-39225 Vinod Batra, AOC—01 Feb 2005	IC-39395 S Puri, ASC—01 Feb 2005
IC-39226 Sukheet Singh, ASC—01 Feb 2005	IC-39399 HSS Sandhu, AEC—01 Feb 2005
IC-39229 D Agnihotri, M/Inf—01 Feb 2005	IC-39404 Ravinder Passi, AEC—01 Feb 2005
IC-39232 AS Sahgal, Inf—01 Feb 2005	IC-39418 AK Tyagi, AEC—01 Feb 2005
IC-39233 GT Khanna, Arty—01 Feb 2005	IC-39428 Amarjeet Singh, AEC—01 Feb 2005
IC-39235 Arun Mehta, Engrs—01 Feb 2005	IC-39431 GK Pathak, AEC—01 Feb 2005

IC-39200 Karan Singh, AC—01 Feb 2005	IC-55746 Rajesh Rawat, Inf
IC-41054 L Padmanabhan, Engrs—01 Feb 2005	IC-55845 Mohite Samir Narayan, AOC
IC-41042 R Suresh, EME—01 Feb 2005	IC-55874 Manish Kumar Gosain, Inf
IC-41044 AK Dixit, Sigs—01 Feb 2005	IC-55891 Rakesh Hamdard, AOC
IC-41052 D Chotani, EME—01 Feb 2005	IC-55900 Amit Vikram Singh, AEC
IC-41055 KS Chauhan, Sigs—01 Feb 2005	IC-55924 Lakshman Singh Chauhan, Inf
IC-41058 KT Udupa, Engrs—01 Feb 2005	IC-55949 Arun Bara, Inf
SL-02558 K Moorthi SR, SL QM—01 Feb 2005	—16 Dec 2004
SL-02687 Jaswant Singh, SL RO—01 Feb 2005	IC-56061 Hari Bahadur Thapa, Inf
SL-02693 SB Chail, SL RO—01 Feb 2005	IC-56103 Narender Singh Rautela, Inf
SL-02704 NM Karthik, SL BSO—01 Feb 2005	IC-56124 Vivek Bhandari, Inf
Majors to be Substantive Lt Col (By Time Scale)	IC-56138 Ashok Kumar Maharana, AAD
IC-41766 Maj Y Abbi, AC—17 Dec 2003	—05 May 2005
IC-41671 Maj T K Thomas, Arty—17 Dec 2003	IC-54565 Sreejith K, Arty
IC-45014 Maj R S Choudhary, M/Inf—26 Apr 2003	IC-58379 Mukul Chadha, Mech/Inf
IC-45057 Maj J. Gupta, M/Inf—26 Apr 2003	IC-56677 Rajesh Gupta, Engrs
IC-41343 Maj Kuldeep Sharma, Arty—18 Jun 2003	IC-46838 Kaushik Nandy, Inf
IC-41396 Maj A Kumar, Arty—18 Jun 2003	IC-54038 Vikrant Jain, Arty
IC-41743 Maj M S Jamwal, Arty—17 Dec 2003	IC-54066 Ashok Mishra, Arty
IC-41711 Maj S K Sahoo, Arty—17 Dec 2003	IC-54222 Sachin Vashista, ASC
IC-41115 Maj R S P Selvan, Arty—18 Jun 2003	IC-54231 Deb Kumar Bose, Arty
IC-41199 Maj Pratap Singh, Arty—18 Jun 2003	IC-55267 Vijay Kumar Gour, ASC
IC-43194 Maj Ranjeet Singh, Engrs—19 Jun 2003	IC-55495 Abhay Singh Dev, AC
IC-41716 Maj S K Singh, Arty—17 Dec 2003	IC-55496 Gurmohinder Singh, Inf
IC-41699 R S Shivratin, Int—17 Dec 2003	IC-57769 Rohit Yadav, Arty
IC-41146 G S Mehta, Int—18 Jun 2003	—16 Dec 2004
IC-41317 P Venkateswarlu, Int—18 Jun 2003	IC-56070 Rohit Srivastava, ASC
IC-45136 K B S Khurana, Int—10 Nov 2003	IC-56077 Praveen Dahiya, ASC
IC-41642 Raveendran, Int—17 Dec 2003	IC-56082 Bibhuti Nath Jha, Arty
IC-45053 Babul Chandra, Arty—26 Apr 2003	—05 May 2005
Capt to be Maj	IC-58623 Abhishek Bhushan Deo, Inf
IC-55578 Vikas Badhwar, AAD	IC-58671 Rajneesh Giri, Inf
IC-57548 Shashank Kushwaha, Arty	IC-58847 T Raul, Arty
IC-55628 Rajeev Sharma, Inf	—12 Jun 2005
IC-55743 Dhirender Malik, Inf	Capt to be Maj
IC-55744 Vikas Sharma, Sigs	(Special List)
IC-55745 Asit Kumar Mohanty, Mech/Inf	SL-4744 Anupam Gupta, SL/AEE/B/R/ASW
	—16 Dec 2004
	AJAY GOEL Dy Dir MS-8C

**MILITARY SECRETARY'S BRANCH**

No. 157, dated 24th February 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION**

To be Substantive Brigadier

IC No., Rank, Name, Arm and D. O. Subs Brig

IC-23276 Col Thamburaj N, SM, Engrs (GC)—31 Mar 2002 with seniority from 03 Aug 1997 without effect on pay and pension.

IC-32857 Col RK Chauhan, SM, VSM, Inf—01 Jul 2004 with seniority from 05 Mar 2003 without effect on pay and pension.

IC-27772 Col Abhijit Saha, Arty—14 Apr 2004 with seniority from 16 Aug 2003 without effect on pay and pension.

IC-33000 Col DS Kullar, 4 Horse—16 Apr 2004 with seniority from 05 Oct 2003 without effect on pay and pension.

IC-33059 Col RRK Nair, Arty—19 Apr 2004 with seniority from 03 Nov 2003 without effect on pay and pension.

IC-30126 Col SK Dhawan, Sigs—30 May 2004 with seniority from 07 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-30247 Col IA Khan, AEC—29 Jan 2005 with seniority from 07 Apr 2004 without effect on pay and pension.

IC-31567 Col Vikram Singh, Engrs—29 Dec 2004 with seniority from 10 Apr 2004 without effect on pay and pension.

IC-23011 Col IJ Koshy, Arty—02 Oct 2000 with seniority from 01 Mar 1997 without effect on pay and pension.

N. K. PHUKAN  
Jt Dir/MS(X)

**(NAVY BRANCH)**

No. 158, dated 27th February 2006.—The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Branch (Air Traffic Control) of Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4 (1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MoD(N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and date of Promotion

Harmeet Kaur (05313Z), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of Indian

Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4 (1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MoD(N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and date of Promotion

T Shankaram (05532Y), 01 Jul 2004—16 Jul 2005

KSRRP Murthy (05533Z), 01 Jul 2004—01 Aug 2005

A K Roy (05534A), 01 Jul 2004—16 Jul 2005

A K Panchal (05531W), 01 Jul 2004—01 Aug 2005

Shipa Khanna (05474R), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Svati Totawar (05476W), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Shivani (05477Y), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Saroj Singh (05475T), 11 Aug 2003—26 Dec 2004

J K Arora (05478Z), 22 Aug 2003—16 Dec 2004

Ankit Pandey (05451N), 01 Jan 2004—01 Apr 2005

N Praveen (05454W), 01 Jan 2004—16 May 2005

Praveen Kumar (05357Z), 01 Jan 2003—16 Dec 2004

Akhil Pandey (05358A), 01 Jan 2003—16 Dec 2004

S M Augustine (05347A), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Shweta Sethi (05343T), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Bhavna Salaria (05346Z), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Paramjeet Singh (05350H), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Pooja Rajput (05352N), 18 Aug 2002—16 Dec 2004

Ramendra Singh (05344W), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Priyanka Gupta (05345Y), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

Barkha Rathore (05399W), 10 Feb 2003—16 Dec 2004

This supersedes all the previous DGNs issued in respect of the above named officers as Lts.

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of Naval Constructor of Indian Navy under the provisions of Ministry of Defence letter No. NC/3066/NHQ/3182/D(N-II) dated 10 Jun 1977 and Navy order No. 127/99:—

Name, P. No., Date of Commission, Seniority gained and Date of Promotion

Naveen Nair (42184Y) 15 Jul 2000, 07—15 Jun 2002

N J Mannanal (42228Y) 02 Jul 2001, 1—02 Dec 2003

R Nagendra (42233H) 02 Jul 2001, 1.5—17 Nov 2003

Smita Mohanta (42235N) 02 July 2001, 2.5—17 Oct 2003

B Sawant (42242B) 02 Jul 2001, 7.5—17 May 2003

Vijay Saxena (42243F) 02 Jul 2001, 0.5—17 Dec 2003

Pradeep Kumar (42246N) 02 Jul 2001, 4.0—02 Sep 2003

Manju Kumari (42247R) 17 Jul 2001, 1.0—17 Dec 2003

**PERMANENT COMMISSION**

**NAVAL CONSTRUCTOR (ENGINEERING BRANCH)**

Name of the Sub Lt., Personal Number and Date of Commission

Sunit Mehrotra (42536Y), 01 Jan 2004

Mayank Mittal (42537Z), 01 Jan 2004

Rajesh P (42538A), 01 Jan 2004

Adil Mohideen S(42539B), 01 Jan 2004

Amit Punia (42540F), 01 Jan 2004

Tarun Kumar Singh (42541H), 01 Jul 2004

Melin Arvind (42542K), 01 Jul 2004

**Sub Lts to be Lts**

The President is pleased to make the following Promotion in the Engineering Branch, Corps of Naval Constructor of Indian Navy under the provision of Ministry of Defence letter No. NC/3066/NHQ/3182/D(N-II) dated 10 Jun 1977 and Navy order No. 127/99:—

Name, P. No., Date of Commission, Seniority gained and Date of Promotion

Nitin Saxena (42248T) 01 Jan 2001, +7—01 Jun 2003

P Sreekumar (42249W) 01 Jan 2001, +7.5—16 May 2003

KSN Kumar (42250Y) 01 Jan 2001, +6.5—16 Jun 2003

VS Swaminathan (42251Z) 01 Jan 2001, +10.5—16 Feb 2003

The President is pleased to make the undermentioned promotion in the Education Branch of the Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD(N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and date of Promotion

Naveen Kumar RK (70503H), 09 Feb 2004—09 Mar 2005

Vijaya Lakshmi (70487Y), 11 Aug 2003—16 Dec 2003

P S Soodan (70498Y), 09 Feb 2004—09 May 2005

K P Ajesh (70499Z), 09 Feb 2004—09 Feb 2005

G Ramachandran (70500A), 09 Feb 2004—09 Mar 2005

Mannu Virk (70501B), 09 Feb 2004—09 Mar 2005

Pramod Menon (70502F), 09 Feb 2004—09 Mar 2005

Madhav T Vittal (70504K), 09 Feb 2004—09 Mar 2005

V D Heisnam (70485T), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

V S Yadav (70494N), 21 Aug 2003—16 Dec 2004

Yogita Rani (70496T), 24 Aug 2003—24 Dec 2004

VV Yelegaonkar (70483N), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

M V Patkar (70484R), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Joydeep Deb (70486W), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Vatsala Singh (70488Z), 11 Aug 2003—11 Feb 2005

Pradeep Debnath (70490B), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

K R Sabarinath (70493K), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

M K Mahawar (70477Z), 10 Feb 2003—16 Dec 2004

K K G Reddy (70480K), 10 Feb 2003—16 Dec 2004

Gireesh Gopidas (70481H), 11 Aug 2003—11 Jan 2005

Amit Ahlawat (70482K), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

Ganesh S Gaikwad (70491F), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

S Rajkumar (70492H), 11 Aug 2003—16 Dec 2004

A K Sharma (70495W), 21 Aug 2003—21 Dec 2004

Abdul Rashid Karim (70479B), 10 Feb 2003—16 Dec 2004

Naveenkrishna Chandra (70478A), 10 Feb 2003—16 Dec 2004

Lincy Puthiyathu (70474T), 12 Aug 2002—16 Dec 2004

**(PERMANT COMMISSION)**

The President is pleased to make undermentioned promotions in the "X" Branch (Naval Aviation Cadre) of the Indian Navy under Navy Order No. 56/80:—

Name, P. No., Date of Commission, Time gained in months and Date of Promotion to Lt.

Hardeep Singh (05108H) 01 Jul 2001, +12—01 Jul 2003

S S Reddy (05208K) 01 Jul 2002, +11—01 Aug 2004

The President is pleased to make the following promotion in Executive Branch (Naval Aviation Cadre) of Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/Mod(N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion to Lt as per AVS report

Sarvesh (05277T), 01 Jan 2003—16 Dec 2004

Arun Naruka (05281A), 01 Jan 2003—16 Dec 2004

S K Agnihotri (05292A), 01 Jan 2003—16 Dec 2004

Ninad S Pawar (05388W), 01 Jul 2003—16 Dec 2004

**GEORGE MATHEW**  
**DD (C&J)**

Directorate of Personnel

## (AIR BRANCH)

No. 159, dated 28th February 2006.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Logistic branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Logistic Branch. The officer will be placed between Fg Offr JP Pulikeshi (27764) Lgs and Fg Offr Brajesh Kumar (28247) Lgs in the AF List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of suspension from flying training i.e. 02 Nov 2004 vide Air HQ letter No. Air HQ/21901/27725/PO-3(E) dated 03 Aug 2005.

Fg Offr P Malhotra (27725) F(P) to Lgs wef 02 Nov 2004.

The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Adm Branch. The officer will be placed between Fg Offr SVK Pillai (27265) Adm and Fg Offr V Singh (27240) Adm in the AF List. The officer will not be entitled to Flying Pay

with effect from the date of being found unsuitable for flying training i.e. 14 Jul 2005 vide Air HQ letter No. Air HQ/21901/27208/PO-3(E) dated 30 Aug 2005.

Fg Offr Rajesh Punia (27208) F(P) to Admn wef 14 Jul 2005.

P SINGH  
Wg Cdr  
JDPO-3(E)

## ARMY BRNACH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGINEERING

No. 160, dated 22nd February 2006.—The undermentioned officer retired from service with effect from the date mentioned against his name:—

Shri Sukh Lal Verma, Asstt. Exec. Engineer—31 May 2005 (Afternoon)

NK KASHMIRA  
Under Secy.